

Jamna Auto Industries Ltd.

July 2, 2021

To,

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,

Mumbai- 400001 Maharashtra Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051, Maharashtra

BSE Code: 520051 NSE Code: JAMNAAUTO

<u>Subject-Notice for transfer of equity shares and dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF)</u>

Dear Sir,

Pursuant to the requirements of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the Notice sent to the shareholders and copies of newspaper advertisements published in The Financial Express (Delhi and Chandigarh Edition) and Jansatta (Delhi and Chandigarh Edition) regarding the unclaimed dividend and equity shares liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund Demat Account.

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera

Company Secretary & Head-Legal

Encl: As above

Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Tele: +91-11-26893331 | Fax: +91-11-26893180 | www.jaispring.com | CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd Office: Jai Spring Road, Yamuna Nagar (Haryana)-135 001, India | Tel: +91-1732-251810 | Fax: +91-1732-251820

YAMUNA NAGAR | MALANPUR | CHENNAI | JAMSHEDPUR | PANTNAGAR | HOSUR | PUNE

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED



Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Telephone: +91 11 26893331

Website: www.jaispring.com. CIN: L35911HR1965PLC004485

NOTICE

Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2013-14 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Dear Member(s),

Notice is hereby given that pursuant to Section 124(5) & 124 (6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 5 & 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer the dividend which remained unclaimed or unpaid for a period of seven years, to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. The detail of such unclaimed or unpaid dividend can be assessed on Company's website at www.jaispring.com and the shareholders can claim their pending dividend before transfer of unclaimed dividend amount to IEPF.

The Company is also required to transfer all such equity shares in respect of which dividend has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to IEPF Demat Account.

Accordingly, Pursuant to the above statutory obligations following is required to be transferred to IEPF Account:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Date of Claim to be forwarded to the Company
Unclaimed Dividend FY 2013-14 (Final)	October 03, 2021	On or before September 25, 2021
Please note that the Equity Shares or	n which dividend has not be	en encashed or claimed by the shareholders for

Please note that the Equity Shares on which dividend has not been encashed or claimed by the shareholders for consecutive seven years shall be transferred to IEPF Demat Account on the aforesaid due date. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF.

If you have not claimed your dividend for the last seven consecutive years and the amount is lying unpaid/unclaimed against your folio/ demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email:

- (i) A formal letter duly signed by all the joint holders, if any
- (ii) Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and
- (iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.

You are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will transfer the shares to the IEPF Demat Account by the aforesaid due date without any further notice.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc; that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Account.

Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Account, you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available on the website i.e. www. iepf.gov.in.

In view of the foregoing, you are requested to take immediate action by writing to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following address so that it should reach on or before September 25, 2021:

To Company	To Registrar & Share Transfer Agent		
Jamna Auto Industries Limited	Skyline Financial Services Private Limited		
2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj,	D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New		
New Delhi - 110070, India	Delhi-110020		
Contact No. +91-11- 26893331	Ph. No.: +91-11-40450193 to 97		
Email: investor.relations@jaispring.com	Email: parveen@skylinerta.com; grievances@skylinerta.com		
	Contact Person: Mr. Parveen Sharma		

For Jamna Auto Industries Ltd.

Sd/-Praveen Lakhera Company Secretary & Head- Legal

Place: New Delhi Date: June 28, 2021

FINANCIAL EXPRESS

GOLDEDGE ESTATE AND INVESTMENTS LIMITED CIN: L70101DL1992PLC047541 Regd. Office: C-115, Mansarovar Garden Ground Floor New Delhi-110015

Ph. No.-011-25193268 E-mail: goldedgeestate2016@gmail.com www.goldedgeestate.in EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2021. (Rs in lacs except earning per share)

Quarter Ended Year Ended Particulars 31-Mar-21 31-Dec-20 31-Mar-20 31-Mar-21 31-Mar-20 (Audited) (Audited) Total income from operations (gross) 14.65 14.27 12.98 55.41 51.27 Total income from operations (net) 51.27 14.65 14.27 12.98 55.41 Net Profit for the period (before tax and 5.08 3.97 1.12 2.35 18.43 exceptional items! Net Profit for the period before tax (after 5.08 3.97 1.12 18.43 2.35 exceptional items) Net Profit for the period after tax (after 2.49 0.64 13.62 1.54 3.75 exceptional items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) 2.49 0.64 13.62 and Other Comprehensive Income (after tax)) Equity Share Capital 512.24 512.24 512.24 512.24 43.57 57.19 Earnings Per Share (before extraordinary 0.01 0.27 0.03 0.05 0.07 0.05 0.03 Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) 0.03 0.01 0.27 Diluted 0.07 0.05 EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

S.	34276.000	- 39	Quarter Ende	d	Year Ended		
No	Particulars	31-Mar-21 (Audited)	31-Dec-20 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)	
1	Total income from operations (gross)	14.65	14.27	12.98	55.41	51:27	
2	Total income from operations (net)	14.65	14.27	12.98	55.41	51.27	
3	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	5.08	3.97	1.12	18.43	2.35	
4	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	5.08	3.97	1.12	18.43	2.35	
5	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	3.74	3.00	0.64	13.62	1.53	
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit "for the period (after tax)] and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.03	3.06	1.19	14.62	1.87	
7	Equity Share Capital	512.240	512.240	512.240	512.240	512.240	
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)		+:	+3	62.97	48.35	
9	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted:	0.079	0.060	0.023	0.285 0.285	0.04 0.04	
10	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted :	80.0 80.0	0.06 0.06	0.02	0.29 0.29	0.04 0.04	

The full format of the Quarterly results are available on the stock exchange websites i.e. www.msei.in and on Company website www.goldedgeestate.in For and on behalf of the Board For Goldedge Estate and Investment Limited

Place: New Delhi Jagdisgh Chand Agrawal Date: 30.06.2021

LYKA EXPORTS LIMITED CIN: U51100GJ1992PLC023975

Registered Office: C/4/10/B/2nd Floor, Adarsh Commercial Complex, Opp. SBI, Ankleshwar, - 393 002 Tel: 022- 66 112200 Email: harshad.kawa@lykalabs.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of Members of Lyka Exports Limited (the Company) will be held on Friday, 23 July, 2021, at 12.30 P.M. (IST) through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact business as set out in the Notice In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars') permitted the holding of the AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company is offering "remote e-voting facility" prior to the date of AGM and "e-voting facility" during the AGM, to its Members for all businesses to be transacted at the AGM The Company has appointed National Securities Depository Limited for facilitating e-voting services. Detailed instructions for joining the AGM and remote e-voting process are given in the Notice. Members who have not cast their votes through remote e-voting may cast their votes during the meeting electronically on the business as specified in the AGM Notice.

2021 has been sent through electronic mode on 01 July, 2021 to the member's whose email addresses are registered with Depository participants/ M/s Link Intime India Private Limited (Company's RTA Agent) as on June 25, 2021, Members holding shares in dematerialised form who have not updated their email addresses, are requested to contact their Depository Participant for updation of their email id. Members holding shares in physical mode and have not yet updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the RTA agent at rnt.helpdesk@linkintime.co.in with the copy of the signed request letter mentioning their name and address, self-attested copy of the PAN card and self-attested copy of a valid

The remote e-voting period commences on Tuesday, 20 July, 2021 from 10.00 A. M. (IST) and ends on Thursday, 22 July, 2021 upto 5.00 P.M. During this period, members of the Company holding shares, as on the cut-off date i.e. Friday, July 16, 2021, may cast their

register themselves as a speaker by sending their request in advance at least 7 working days prior to AGM, mentioning their name, DEMAT account number / folio number, email id, mobile number, PAN at harshad.kawa@lykalabs.com. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

Company can be downloaded from website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com

PHONE NO. 01822-230244

Email: punjabgraminbank@gmail.com, www.pgb.org.in

PROFIT & LOSS ACCOUNT

FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

Number

13

14

15

16

17

18

H.O. :- JALANDHAR ROAD, KAPURTHALA,

Regd. Off.: G.T. Road, Village Pawa, Sahnewal, Ludhiana-141 120(Punjab), India CIN: L27109PB1980PLC004327, Tel.:+91-161-2511413, Fax: +91-161-2511414

E-mail: fin.ho@vallabhgroup.com website: www.vallabhsteelsltd.in EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 (Rs. in Lakhs)

Quarter Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2021	Quarter Ended 31.03.2020
()	Audited	1)
58.53	590.91	249.08
(1504.91)	(2118.12)	(634.63)
(1492.16)	(2105.37)	(615.82)
3.60	3.60	(8.62)
(1488.56)	(2101.77)	(624.44)
495.00	495.00	495.00
(30.14) (30.14)	(42.53) (42.53)	(12.44) (12.44)
	58.53 (1504.91) (1492.16) 3.60 (1488.56) 495.00	Ended 31.03.2021 (Audited 58.53 590.91 (1504.91) (2118.12) (1492.16) (2105.37) 3.60 (1488.56) (2101.77) 495.00 495.00 (30.14) (42.53)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter and year ended 31st. March, 2021 Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and year ended 31st March, 2021 Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on Company's website; i.e. www.vallabhsteelsltd.in For Vallabh Steels Limited

Place: Ludhiana Dated: 30-06-2021 (Kapil Kumar Jain)



Harshad V. Kawa

Company Secretary

Amount Rs. in '000'

For the Year

31.03.2021

1015,00,2

178.60.84

1193,61,04

586,68,25

406.33.3

118,43.00

1111,44,62

82,16,42

29,13,97

53,46,47

460,83,17

514,37,06

16.43.28

497,38,99

514,37,06

For Ashwani & Associates Chartered Accountants

(Sagar Chopra)

54,79

(44,02)

7,42

For the Yea

31.03.2020

960,30,90

164.84.30

1125,15,20

570.61.68

473,37,83

1053,67,11

71,48,09

22,12,07

(1,32,49)

50.68,51

429,06,69

(4,47,81)

475,27,39

14,29,62

460,83,17

475,27,39

14,60

9,67,60

NMDC Limited (A Government of India Enterprise) 10-3-311/A, CASTLE HILLS, MASAB TANK, HYDERABAD-500 028 CIN: L13100TG1958GOI001674

e-Tender Notification Bid Notice No.: NMDC-Kirandul/SP-III/2021/PKG-X Dated: 02.07.2021

NMDC Limited, invites e-tenders on Turnkey Basis from experienced, reputed and competent Contractors/firms as per the details: Package Name: Balance Works including Residual Engineering and Site Services for Rapid Wagon Loading along with Feeding Conveyor System

on Turnkey Basis (Package - X) at Kirandul Complex, Dist. Dantewada Chhattisgarh State.) Consultant: TATA CONSULTING ENGINEERS, KOLKATA Fifteen (15) months (including monsoon period)) Completion Time:) EMD amount:

Last date & time of Bid submission: On or before 3.00 P.M. (IST on 02.08.2021 The tender document including pre-qualification requirement can be viewed and/or downloaded from NMDC's website https://www.nmdc.co.in; CPF portal: www.eprocure.gov.in MSTC website: https://mstcecommerce.com

rom 02.07.2021 to 01.08.2021. For accessing the Bid document from NMDC website, the bidder has to registe as 'New User' in Bid section at NMDC"s website link http://www.nmdc.co.in/ nmdctender/Default.aspx.

For accessing the bid document from MSTC, bidders to click website link https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdc/buyer_login.jsp and view/download the Tender documents.

The Bidders on regular basis are required to visit above website for corrigendum, if any, at a future date.

For further clarifications undersigned can be contacted: Mr. Sowmen Bisai, Project Manager TATA CONSULTING ENGINEERS

LIMITED Block JC-30/A, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700 106, West Bengal India Mob.: (+91) 91636 22244, Ph: (+91-33) 66115500, Fax- (+91-33) 66115501; E-Mail: sbisai@tce.co.in

IM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED (Formerly known as JM Finance Asset Reconstruction Company Private Limited)

Corporate Identification No.: U67190MH2007PLC174287 Regd. Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025 Authorised Officer: Kumar Gaurav & Akshay Shetty; email- gaurav.kumar@jmfl.com

& akshay.shetty@jmfl.com, Mobile- +919930144745 & +919821898500; Phone- + 91 022 66303030; Website: www.jmfinancialarc.com

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provisions to Rules 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor(s)/Mortgagors that the below described immovable property mortgaged/charged to JM Financial Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as trustee of JMFARC - OBC March 2016- Trust (the "Secured Creditor"/"JMFARC"), the possession of which has been taken by the Authorised officer of Oriental Bank of Commerce (Assignor Bank, Now assigned to JMFARC) on September 29, 2015, will be sold on "As is where is". "As is what is", and "Whatever there is" on August 02, 2021 at 11.00 am, for recovery of Rs. 2,21,72,50,560.35 (Rupees Two Hundred And Twenty One Crore Seventy Two Lakhs Fifty Thousand Five Hundred Sixty & Thirty Five paisa Only) as on May 31, 2021 due to the Secured Creditor from M/s. Jindal Cotex Ltd (hereinafter referred to as "Borrower") and (i) Mr. Sandeep Jindal (ii) Mr. Yash Paul Jindal (iii) Mr. Rajinder Jindal (iv) Mr. Ramesh Jindal (i to iv together hereinafter referred to as 'Guarantors')

Detailed description of the property, its reserve price and earnest money deposit shall be as

Description of the Immovable Property	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money Deposit (in Rs.)
Factory Land and Building built over plot/land admeasuring 40260 sq. yards out of land comprised in Khata no. 33/57-58, 78/155, 34/59-60, 35/61-62, 36/63-64, 45/79-80, 55/95-96, 61/113 to 115, 83/160-161, 84/162-163, 85/164-165, 86/166-167, 89/172 to 175 Khasra nos. 580, 581, 582, 585, 586, 587, 584, 589, 227, 228, 229, 230, 231, 578, 579, 588, 550, 583, 551, 226, 232, 240, 234, 225 as per Jamabandi for the years 1992-93 situated at Village Jugiana, Hadbast no. 244, G.T. Road, Tehsil and District Ludhiana in the name of Mr. Yash Paul Jindal, Mr. Rajinder Jindal and Mr. Ramesh Jindal.	15,70,00,000	Rs. 1,57,00,000

Encumbrances known, if any: Not Known

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the Secured Creditor's website i.e. https://www.jmfinancialarc.com/assets-for-sale and on https://www.bankauctions.in **Authorised Officer**

JM Financial Asset Reconstruction Company Limited Date : July 02, 2021 acting in its capacity as trustee of JMFARC - OBC March 2016 - Trust Place: Ludhiana

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kuni, New Delhi-110070 Telephone: +91 11 26893331, Website: www.jaispring.com.

Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Shareholders are hereby informed that pursuant to Section 124(5) of the Companies Act. 2013 ("the Act"). if a dividend remains unclaimed for a period of seven years then such dividend is required to be statutorily transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) establishes by the Central Government.

IEPF forwarded to the Company Unclaimed Dividend FY October 03, 2021 On or before September 25. 2013-14 (Final)

Further, please note that in terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer all the Equity Shares to IEPF Demat Account on the aforesaid due date in respect of which dividend has not been encashed or claimed by the shareholders for consecutive seven years. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF Account.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares.

IEPF Account The detail of such unclaimed or unpaid dividend is available on Company's website viz

www.jaispring.com. The shareholders are hereby requested to check and to take immediate actions to claim their pending dividend before transfer of unclaimed dividence amount to IEPF Account. We request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email: i) A formal letter duly signed by all the joint holders, if any

Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and (iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.

You are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares to the IEPF

Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Account, you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available or

case of any queries shareholders may write to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following addresses so that it should reach on or before September 25, 2021:

Jamna Auto Industries Limited 2 Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1. New Delhi-110020 New Delhi-110 070 Contact No. +91 11 26893331 Ph. No.: 011-40450193 to 97 Email: parveen@skylinerta.com; Email: investor.relations@jaispring.com grievances@skylinerta.com

For Jamna Auto Industries Ltd

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide its letter No. F.No.21-34/202- IA.III dated 29.06.2021 has accorded Environmental Clearance for "Development of Commercial" Complex at Plot No. 1 & 2 Najafgarh Road / Shivaji Marg, New Delhi" being developed by M/s DLF Home Developers Limited, as per applicable provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

Copies of the Clearance Letter is available on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

This Public Notice is issued in compliance with the terms of Environmental Clearance accorded to the above said Commercial Project. Rajeev Singh

> (Authorised Signatory) DLF Home Developers Limited. DLF Center, Sansad Marg, New Delhi

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF EDUSMART SERVICES

PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION

Pursuant to Regulation 31(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board Of India [Liquidation Process] Regulation, 2016 Public Announcement is hereby made that the list of stakeholder of Edusmart Services Private Limited in Liquidation ("Corporate Debtors") has been Prepared by the Liquidator, which has been filed with the Hon'ble National Tribunal Law, New Delhi Bench ("Hon'ble NCLT") On 1st July, 2021.

As there is no functional website of the Corporate Debtor, Hence the list of Stakeholders Showing Complete details of the amount of the claims admitted by the Liquidator, extent up to which the claims are secured/unsecured. Details of stakeholders and proofs Admitted/Rejected in part and those wholly rejected, if any, can be viewed on the website of the Liquidator, on the following link:

https://drive.google.com/file/d/1pMwsCZHFhXOtxzyagoYsMuRQj1BxEOQv /view?usp=sharing

The Stakeholders are further notified that any modification of entries in the list of stakeholders, as filed with the Hon'ble NCLT, can be made only by filling an application with the Hon'ble NCLT.

BEEKAY NIRYAT LIMITED Regd. Office: SP - 825, Road No. 14, V K I Area, Jaipur -302013

Corporate Office: 9, Hungerford Street, Kolkata-700017 Tel.: 033-2280-4442; Fax: 033-30235391; E: beekayniryat1975@gmail.com CIN: L67120RJ1975PLC045573; W: bkn.bajoriagroup.in

Extract of the Audited Financial Results for the Quarter & Financial Year ended 31st March, 2021

(Amt in Lakhs) Year ended **Particulars** 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 191.31 Total Income from Operations 14.79 82.55 94.93 Other Income 86.78 95.84 286.24 Total Revenue 86.78 97.34 95.84 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. 59.42 63.83 51.68 55.68 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 59.42 63.83 51.68 55.68 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after, Exceptional and/or Extraordinary item: Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit] (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax)] 49.16 55.07 (20.78)Equity Share Capital 76.84 76.84 76.84 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)

1.Basic:

2.Diluted:

(a) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the guarter and year ended 31st March, 2021filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financia Results for the quarter and year ended 31st March, 2021is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website (bkn.baioriagroup.in). The above financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2021 were reviewed and

recommended by the Audit committee and thereafter approved by the Board of Directors in its meeting c) Figures for the prior periods/years have been regrouped and/or classified wherever considered

0.57

0.57

0.64

0.64

0.48

0.48

necessary. For Beekay Niryat Limited

Puja Bajoria (Chairperson cum Managing Director)

ORIENT BELL LIMITED

Corp. Off: Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046 Tel.: +91-11-47119100, Email: investor@orientbell.com, Website: www.orientbell.com INFORMATION REGARDING 44* ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD

provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice calling AGM. The Company's Registered office i.e. 8, Industrial Area, Sikandabad-203 205, Distt. Bulandshahr (U.P.) would be considered as venue for the purpose of the AGM.

AGM and Integrated Annual Report for the financial year ended 2020-21 has been sent electronically to all those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.orientbell.com as well as on the websites of the Stock

The Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 20th July, 2021 to 26th July, 2021 (both days inclusive) and the cut off date 19" July, 2021 shall be considered as relevant date for the purpose of ascertaining the shareholders entitled to receive dividend for the financial year ended 31st March, 2021

Manner for casting vote(s) through e-voting:

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means through NSDL Platform and the businesses may be transacted through such voting.

remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM.

It may be noted as under:

- a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 19" July, 2021, may cast their vote electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.
- b) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 19th July, 2021, may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or admin@mcsregistrars.com by mentioning his/her Folio No./ DP ID and Client ID. However, if he/she is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use existing user ID and password for casting the vote.
- The remote e-voting period commences on Friday, 23th July, 2021at 09:00 A.M.(IST) and ends on Sunday, 25" July, 2021 at 05:00 P.M.(IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- d) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- e) The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the AGM and the Members participating in the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be

entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting. The Board has appointed Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during the meeting in a fair and

Manner of registering/updating e-mail address: Those members holding shares in physical form, whose email addresses are not

registered with the Company, may register their email address and mobile number by communicating/writing to the Company at investor@orientbell.com or to Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65. Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020, Tel No. 011-41406149 at admin@mcsregistrars.com and the members who are holding shares in demat form, can update their email address and mobile numbers with their respective Depository

write to the undersigned at investor@orientbell.com or send their queries at the Corporate Office address at Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi -110046. For Orient Bell Limited

Yogesh Mendiratta

The notice convening the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-

proof of address (eg. Aadhaar Card, Passport, Voting Card) supporting the address.

vote by remote e-voting on the business set out in the AGM Notice. Shareholders who would like to express their views / ask questions during the meeting may

The Notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2020-21 of th

For Lyka Exports Limited

Date: 01 July, 2021 Place: Mumbai

PARTICULARS

INCOME

TOTAL

TOTAL

PROFIT

Interest Earned

Other Income

EXPENDITURE

Interest Expended

Operating Expenses

Notes on Accounts

Less Provision For Utax

Profit Brought Forward

APPROPRIATIONS

Prev. Year Tax Adjustment

Provisions and Contingencies

Principal Accounting Policies

Profit for the Period Before Tax

(Add)/Less: Prov. for deferred Tax Lib

Profit Available For Appropriation

Transfer to Statutory Reserves

Transfer to Other Reserves

Balance C/o to Balance Sheet

SK Dubey

Chairman

Net Profit For The Period After Tax.

ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ 🔘 ਧੰਗਕ ग्रामीण ਕੈਂक

Punjab Gramin Bank Sponsored By Punjab National Bank BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021

Total Business (Amount Rs. in '000 Rs. 18423 Cr As on As on **PARTICULARS** Number 31.03.2021 31.03.2020 Capital & Reserves **CAPITAL & LIABILITIES** Rs. 1074 Cr 25,36,64 25.36.64 Capital Reserves and Surplus 1048,83,16 995.29.27 **Total Deposits** Deposits 10801,88,25 9443,65,65 Rs. 10802 Cr .4 1956,63,99 1749,00,49 Other Liablities & Provisions 156,34,39 241,11.6 13989,05,43 12454,43,72 **ASSETS** Cash & Balance with RBI 385,39,67 276,40,8 Balance with Banks & 2285,74,76 1058,98,33

Total Advances Rs. 7621 Cr Total Agri Advances Money at call & short notice Rs. 6323 Cr 4313,39,46 3753,66,59 Vovances 7172,83,68 6507,71, 26,17,30 10 bed Assets 23,59,56 **Total PS Advances** 11 Other Assets 367,82,1 271,76,04 Rs. 7198 Cr Total 12454,43,72 13989,06,43 **Gross Profit** Contingent Liabilities 4,58,44 12 4,48,97 Rs. 82.16 Cr

Principal Accounting Policies

Notes on Accounts

Bills for Collection

Director

Signed by: Rohit Salaria Chief Manager Jaan Mohammad Shashi Kumar

VK Dua General Manager Bimal Sharma

17

18

General Manager

S.K. Aggarwal **AUDITORS' REPORT**

TOTAL

Mehar Chand

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS Partner We have audited the accompanying Financial Statements of Punjab Gramin Bank (the 'Bank') which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2021, the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements"). This Statement, which is the responsibility of the Bank's management and approved by the Board of Directors, has been prepared in accordance with the Regional Rural Bank Act, 1976, the Banking Regulation Act, 1949 and other Banking Laws in India, accounting principles generally accepted in India along with recognition and measurement principles laid down in the

Accounting Standards Issued by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Bank and National Bank of Agriculture and Rural Development ('NABARD') guidelines from time to time. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2021; and b. true balance of profit in case of Profit &loss account for the year ended on that date. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements Section of our Report. We are independent of the bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other

ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

Net Profit

Rs. 53.46 Cr

Director

OPINION

We draw attention to: Note no. 5.5 of Part B of Schedule 18 of the Financial Statements, whereby the Bank has for the year created provision for NPA amounting to Rs 118.43Crore. It results in increase of PCR from 55.85% to 77.05% as on 31stMarch 2021. The Bank continues to hold the excess provision amounting to Rs 215.60 Crores in addition to the required provision of Rs 232.34 crores as per IRAC norms issued by Reserve Bank of India.

Note No. 12.3 of Part B of Schedule 18 of Financial statements, which describes deferment of pension liability of the Bank pursuant to exemption granted by the NABARD to Regional Rural Banks (RRBs) from application of the provision of Accounting Standards (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no. EC No. 322/DoS-34/2019 Ref. No. NB. DoS Pol. HO/2533/J-1/2019-20 dated 12th December 2019 iii) Note No. 19.2 of Part B of Schedule 18 of the Financial statements regarding the impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and the Bank is

The Bank's management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank is

accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and Form 'A' and

'B' of the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Bank of Agriculture and Rural

Development ("NABARD") from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for

evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced. Our opinion is not modified in respect of this matter RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from materia

misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, the management is also responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. An audit involves performing procedures to obtain reasonable assurance about whether the inancial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes opinion. Reasonable assurance is a

high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: . Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

transactions and events in a manner that achieves fair presentation. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of an identified misstatements in the financial statements. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audi and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. We also provide those charged with governance with a statemen that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. Incorporated in these financial statements are the returns of 57 branches audited by us and 201 branches audited by Statutory Branch Auditors. Also Incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 164 branches which have not been subjected to

OTHER MATTERS

We did not audit the financial statements / information of 365 branches included in the financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 117,92,36,98 thousands as at 31st March 2021 and total revenue of Rs. 534,62,04 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements The financial statements / information of 258 branches out of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors. Our opinion is not modified in respect of this matter

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs above and as required by Regional Rural Banks Act, 1976 and subject also to the limitations of disclosure required

1. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit and have found them The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

therein, and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

III. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of Audit.

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

ii. Except to the extent of accounting entries proposed by us and other branch statutory auditors vide Memorandum of Changes (MOC) which have not been accounted for in the books of accounts of the Bank as on 31.03.2021, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

properly dealt with by us in preparing this report; and iv. In our opinion, the Balance Sheet, and the Profit and Loss Account comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the relevant authorities Place: Ludhiana

iii. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been

Date: 29.06.2021 financialexp.epa

VALLABH STEELS LIMITED

Chartered Accountants

Date: July 01, 2021

For Ashwani & Associates

Place: New Delhi

Nil (Bid Security Declaration needs to be submitted)

MSTC Ref. no.-NMDC/HO/25/21-22/ET/133

हर एक काम देश के नाम

APPENDIX - IV - A E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and

NOTICE Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2013-14(Final) and

Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF Account: Particulars of Transfer to Due Date of Transfer to Date of Claim to be

Dividend etc: that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the

Demat Account by the aforesaid due date without any further notice.

To Registrar & Share Transfer Agent To Company **Skyline Financial Services Private Limited**

> Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

Company Secretary

0.530.53

Place: Jaipur Date: 30.06.2021

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

(for continuing and discontinued operations)

CIN: L14101UP1977PLC021546 Regd. Off.:- 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P.

THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 26th day of July, 2021 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all applicable

In compliance with all applicable Circulars issued by MCA and SEBI, the Notice of the

Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

and for attending the 44" AGM.

Members can cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting including voting

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote

For any queries, members may contact the undersigned at +91-11-47119100 or may

Place: New Delhi Date: 01.07.2021

New Delhi

the website i.e. www. iepf.gov.in. Individual Notices in this regard have also been sent to the concerned shareholders. In

Contact Person: Mr. Parveen Sharma

FINANCIAL EXPRESS

CIN: L70101DL1992PLC047541

Regd. Office: C-115, Mansarovar Garden Ground Floor New Delhi-110015

Ph. No.-011-25193268 E-mail: goldedgeestate2016@gmail.com www.goldedgeestate.in EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2021

GOLDEDGE ESTATE AND INVESTMENTS LIMITED

w.Y	1	Standalone						
S. No		- 5	Quarter Ende	Year Ended				
MO		31-Mar-21 (Audited)	31-Dec-20 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)		
1	Total income from operations (gross)	14.65	14.27	12.98	55.41	51.27		
2	Total income from operations (net)	14.65	14.27	12.98	55.41	51.27		
3	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	5.08	3.97	1.12	18.43	2.35		
4	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	5.08	3.97	1.12	18.43	2.35		
5	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	3.75	2.49	0.64	13.62	1.54		
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax)] and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.75	2.49	0.64	13.62	1.54		
7	Equity Share Capital	512.24	512.24	512.24	512.24	512.24		
8	Other Equity		- E	- 1	57.19	43.57		
9	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted:	0.07 0.07	0.05 0.05	0.01 0.01	0.27 0.27	0.03 0.03		
10	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted :	0.07 0.07	0.05 0.05	0.01	0.27 0.27	0.03 0.03		

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

S.	Particulars	9	Quarter Ende	Year Ended		
No		31-Mar-21 (Audited)	31-Dec-20 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)
5	Total income from operations (gross)	14.65	14.27	12.98	55.41	51.27
2	Total income from operations (net)	14.65	14.27	12.98	55.41	51.27
3	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	5.08	3.97	1.12	18.43	2.35
4	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	5.08	3.97	1.12	18.43	2.35
5	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	3.74	3.00	0.64	13.62	1.53
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit 'for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.03	3.06	1.19	14.62	1.87
7	Equity Share Capital	512.240	512.248	512.240	512.240	512.240
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	2	7/	20	62.97	48.35
9	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted:	0.079 0.079	0.068 0.060	0.023 0.023	0.285 0.285	0.04 0.04
10	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted :	80.0	0.06 0.06	0.02	0.29 0.29	0.04 0.04

under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and other disclosure Requirements) Regulations 2015 The full format of the Quarterly results are available on the stock exchange websites i.e. www.msei.in and on Company website www.goldedgeestate.in For and on behalf of the Board For Goldedge Estate and Investment Limited

Jagdisgh Chand Agrawal

LE)

LYKA EXPORTS LIMITED

Registered Office: C/4/10/B/2nd Floor, Adarsh Commercial Complex, Opp. SBI, Ankleshwar, - 393 002 Tel: 022- 66 112200

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of Members of Lyka Exports Limited (the Company) will be held on Friday, 23 July, 2021, at 12.30 P.M. (IST) through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars') permitted the holding of the AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at

20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company is offering "remote e-voting facility" prior to the date of AGM and "e-voting facility" during the AGM, to its Members for all businesses to be transacted at the AGM. The Company has appointed National Securities Depository Limited for facilitating e-voting services. Detailed instructions for joining the AGM and remote e-voting process are given in the Notice. Members who have not cast their votes through remote e-voting may cast their

The notice convening the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-2021 has been sent through electronic mode on 01 July, 2021 to the member's whose email addresses are registered with Depository participants/ M/s Link Intime India Private Limited (Company's RTA Agent) as on June 25, 2021. Members holding shares in dematerialised form who have not updated their email addresses, are requested to contact their Depository Participant for updation of their email id. Members holding shares in physical mode and have not yet updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the RTA agent at rnt.helpdesk@linkintime.co.in with the copy of the signed request letter mentioning their name and address, self-attested copy of the PAN card and self-attested copy of a valid

The remote e-voting period commences on Tuesday, 20 July, 2021 from 10.00 A. M. (IST) and ends on Thursday, 22 July, 2021 upto 5.00 P.M. During this period, members of the Company holding shares, as on the cut-off date i.e. Friday, July 16, 2021, may cast their

register themselves as a speaker by sending their request in advance at least 7 working days prior to AGM, mentioning their name, DEMAT account number / folio number, email id, mobile number, PAN at harshad.kawa@lykalabs.com. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

The Notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2020-21 of th Company can be downloaded from website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com

Harshad V. Kawa Date: 01 July, 2021 Company Secretary Place: Mumbai

CIN: L27109PB1980PLC004327, Tel.:+91-161-2511413, Fax: +91-161-2511414 E-mail: fin.ho@vallabhgroup.com website: www.vallabhsteelsltd.in **EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE** QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 (Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2021	Quarter Ended 31.03.202
	(/	Audited	1)
Revenue from operations	58.53	590.91	249.08
Net Profit/ (Loss) (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(1504.91)	(2118.12)	(634.63)
Net Profit/ (Loss) after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(1492.16)	(2105.37)	(615.82)
Other Comprehensive Income (OCI)	3.60	3.60	(8.62)
Total comprehensive Income (Net of tax)	(1488,56)	(2101.77)	(624.44)
Equity Share Capital	495.00	495.00	495.00
Earnings Per Share (of Rs.10/-each) - Basic (Rs.) - Diluted (Rs.)	(30.14) (30.14)	(42.53) (42.53)	(12.44) (12.44)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter and year ended 31st March, 2021 Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and year ended 31st March, 2021 Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on Company's website; i.e. www.vallabhsteelsltd.in For Vallabh Steels Limited

Place : Ludhiana Dated: 30-06-2021

(Kapil Kumar Jain) Chairman



NMDC Limited (A Government of India Enterprise) 10-3-311/A, CASTLE HILLS, MASAB TANK, HYDERABAD-500 028

Dated: 02.07.2021

NMDC Limited, invites e-tenders on Turnkey Basis from experienced, reputed and competent Contractors/firms as per the details:

Services for Rapid Wagon Loading along with Feeding Conveyor System on Turnkey Basis (Package - X) at Kirandul Complex, Dist. Dantewada, Chhattisgarh State.

d) EMD amount: Nil (Bid Security Declaration needs to be submitted) Last date & time of Bid submission: On or before 3.00 P.M. (IST)

and/or downloaded from NMDC's website https://www.nmdc.co.in; CPP portal: www.eprocure.gov.in MSTC website: https://mstcecommerce.com from 02.07.2021 to 01.08.2021.

as 'New User' in Bid section at NMDC's website link http://www.nmdc.co.in/ nmdctender/Default.aspx. For accessing the bid document from MSTC, bidders to click website link-

and view/download the Tender documents. MSTC Ref. no.-NMDC/HO/25/21-22/ET/133

The Bidders on regular basis are required to visit above website for corrigendum, if any, at a future date.

For further clarifications undersigned can be contacted:

LIMITED Block JC-30/A, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700 106, West Bengal, India Mob.: (+91) 91636 22244, Ph: (+91-33) 66115500, Fax- (+91-33) 66115501; E-Mail: sbisai@tce.co.in

हर एक काम देश के नाम

A JM FINANCIAL

JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED (Formerly known as JM Finance Asset Reconstruction Company Private Limited) Corporate Identification No.: U67190MH2007PLC174287

Regd. Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025 Authorised Officer: Kumar Gaurav & Akshay Shetty; email- gaurav.kumar@jmfl.com & akshay.shetty@jmfl.com, Mobile- +919930144745 & +919821898500; Phone- + 91 022 66303030; Website: www.jmfinancialarc.com

APPENDIX - IV - A

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provisions to Rules 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor(s)/Mortgagors that the below described immovable property mortgaged/charged to JM Financial Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as trustee of JMFARC - OBC March 2016- Trust (the "Secured Creditor"/"JMFARC"), the possession of which has been taken by the Authorised officer of Oriental Bank of Commerce (Assignor Bank, Now assigned to JMFARC) on September 29, 2015, will be sold on "As is where is" "As is what is", and "Whatever there is" on August 02, 2021 at 11.00 am, for recovery of Rs. 2,21,72,50,560.35 (Rupees Two Hundred And Twenty One Crore Seventy Two Lakhs Fifty Thousand Five Hundred Sixty & Thirty Five paisa Only) as on May 31, 2021 due to the Secured Creditor from M/s. Jindal Cotex Ltd (hereinafter referred to as "Borrower") and (i) Mr. Sandeep Jindal (ii) Mr. Yash Paul Jindal (iii) Mr. Rajinder Jindal (iv) Mr. Ramesh Jindal (i to iv together hereinafter referred to as 'Guarantors')

Detailed description of the property, its reserve price and earnest money deposit shall be as

Description of the Immovable Property	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money Deposit (in Rs.
Factory Land and Building built over plot/land admeasuring 40260 sq. yards out of land comprised in Khata no. 33/57-58, 78/155, 34/59-60, 35/61-62, 36/63-64, 45/79-80, 55/95-96, 61/113 to 115, 83/160-161, 84/162-163, 85/164-165, 86/166-167, 89/172 to 175 Khasra nos. 580, 581, 582, 585, 586, 587, 584, 589, 227, 228, 229, 230, 231, 578, 579, 588, 550, 583, 551, 226, 232, 240, 234, 225 as per Jamabandi for the years 1992-93 situated at Village Jugiana, Hadbast no. 244, G.T. Road, Tehsil and District Ludhiana in the name of Mr. Yash Paul Jindal, Mr. Rajinder Jindal and Mr. Ramesh Jindal.	15,70,00,000	Rs. 1,57,00,000

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the Secured Creditor's website i.e. https://www.jmfinancialarc.com/assets-for-sale and on https://www.bankauctions.in

Date : July 02, 2021 Place : Ludhiana

Authorised Officer JM Financial Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as trustee of JMFARC - OBC March 2016 - Trust

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L35911HR1965PLC004485

Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kuni, New Delhi-110070 Telephone: +91 11 26893331, Website: www.jaispring.com. NOTICE

Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2013-14(Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Act, 2013 ("the Act"), if a dividend remains unclaimed for a period of seven years there such dividend is required to be statutorily transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) establishes by the Central Government. Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF Account:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Date of Claim to be forwarded to the Company
Unclaimed Dividend FY 2013-14 (Final)	October 03, 2021	On or before September 25, 2021

with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer all the Equity Shares to IEPF Demat Account on the aforesaid due date in respect of which dividend has not been encashed or claimed by the shareholders for consecutive seven years. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF Account.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares,

immediate actions to claim their pending dividend before transfer of unclaimed dividend amount to IEPF Account. We request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email:

(i) A formal letter duly signed by all the joint holders, if any

Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and (iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.

Individual Notices in this regard have also been sent to the concerned shareholders. I case of any queries shareholders may write to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following addresses so that it should reach on or before September

25, 2021:

To Company	To Registrar & Share Transfer Agent
Jamna Auto Industries Limited	Skyline Financial Services Private Limited
2 Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj,	D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area,
New Delhi-110 070	Phase-1, New Delhi-110020
Contact No. +91 11 26893331	Ph. No.: 011-40450193 to 97
Email: investor.relations@jaispring.com	Email: parveen@skylinerta.com;
	grievances@skylinerta.com
	Contact Person: Mr. Parveen Sharma

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide its letter No. F.No.21-34/202- IA.III dated 29.06.2021 has accorded Environmental Clearance for *Development of Commercial Complex at Plot No. 1 & 2 Najafgarh Road / Shivaji Marg, New Delhi" being developed by M/s DLF Home Developers Limited, as per applicable provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

Copies of the Clearance Letter is available on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

This Public Notice is issued in compliance with the terms of Environmental Clearance accorded to the above said Commercial Project.

> Rajeev Singh (Authorised Signatory) DLF Home Developers Limited DLF Center, Sansad Marg, New Delhi

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF EDUSMART SERVICES PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION

Pursuant to Regulation 31(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board Of India [Liquidation Process] Regulation, 2016 Public Announcement is hereby made that the list of stakeholder of Edusmart Services Private Limited in Liquidation ("Corporate Debtors") has been Prepared by the Liquidator, which has been filed with the Hon'ble National Tribunal Law, New Delhi Bench ("Hon'ble NCLT") On 1st July, 2021.

As there is no functional website of the Corporate Debtor, Hence the list of Stakeholders Showing Complete details of the amount of the claims admitted by the Liquidator, extent up to which the claims are secured/unsecured, Details of stakeholders and proofs Admitted/Rejected in part and those wholly rejected, if any, can be viewed on the website of the Liquidator, on the following link:

https://drive.google.com/file/d/1pMwsCZHFhXOtxzyagoYsMuRQj1BxEOQv view?usp=sharing

The Stakeholders are further notified that any modification of entries in the list of stakeholders, as filed with the Hon'ble NCLT, can be made only by filling an application with the Hon'ble NCLT.

B

BEEKAY NIRYAT LIMITED

Regd. Office: SP - 825, Road No. 14, V K I Area, Jaipur -302013 Corporate Office: 9, Hungerford Street, Kolkata-700017 Tel.: 033-2280-4442; Fax: 033-30235391; E: beekayniryat1975@gmail.com CIN: L67120RJ1975PLC045573; W: bkn.bajoriagroup.in

Extract of the Audited Financial Results for the Quarter & Financial Year ended 31st March, 2021

S. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2021	Corresponding Quarter ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
40.		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	- 65	14.79	0.8	191.31
	Other Income	86.78	82.55	95.84	94.93
	Total Revenue	86.78	97.34	95.84	286.24
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,				
300	Exceptional and/or Extraordinary items)	59.42	63.83	51.68	55.68
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	59.42	63.83	51.68	55.68
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax				
	(after, Exceptional and/or Extraordinary items)	43.87	49.16	36.59	41.01
5.	Total Comprehensive Income for the period	Stores	100855	(20)33	308-23
	[Comprising Profit] (Loss) for the period (after	n 2004100	500000000000000000000000000000000000000	5/F/00000	20/20/20/06/07
	tax) & Other Comprehensive Income (after tax)]	43.87	49.16	55.07	(20.78)
6.	Equity Share Capital	76.84	76.84	76.84	76.84
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet	PENKAREN	No. William Co	1879676	122.5596660
	of the previous year)	13	392	100	7,63
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	(for continuing and discontinued operations)	100005-00	202400	1040000	(35-56.7)
	1.Basic:	0.57	0.64	0.48	0.53
	2.Diluted:	0.57	0.64	0.48	0.53

(a) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the guarter and year ended 31st March, 2021filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2021is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website (bkn.bajoriagroup.in). b) The above financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2021 were reviewed and

recommended by the Audit committee and thereafter approved by the Board of Directors in its meeting c) Figures for the prior periods/years have been regrouped and/or classified wherever considered necessary.

For Beekay Niryat Limited Place: Jaipur Puja Bajoria (Chairperson cum Managing Director) Date: 30.06.2021

ORIENT BELL LIMITED

CIN: L14101UP1977PLC021546

Regd. Off.:- 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P. Corp. Off: Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046 Tel.: +91-11-47119100, Email: investor@orientbell.com, Website: www.orientbell.com INFORMATION REGARDING 44° ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 26th day of July, 2021 at 11:00 A.M. IST through Video

Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice calling AGM. The Company's Registered office i.e. 8, Industrial Area, Sikandabad-203 205, Distt.

Bulandshahr (U.P.) would be considered as venue for the purpose of the AGM. In compliance with all applicable Circulars issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM and Integrated Annual Report for the financial year ended 2020-21 has been sent electronically to all those Members of the Company whose email addresses are

registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.orientbell.com as well as on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

The Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 20th July, 2021 to 26th July, 2021 (both days inclusive) and the cut off date 19th July, 2021 shall be considered as relevant date for the purpose of ascertaining the shareholders entitled to receive dividend for the financial year ended 31" March, 2021 and for attending the 44" AGM.

Manner for casting vote(s) through e-voting:

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means through NSDL Platform and the businesses may be transacted through such voting.

Members can cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting including voting remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialized mode physical mode and for Members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM.

It may be noted as under:

- a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 19" July, 2021, may cast their vote electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.
- b) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 19th July, 2021, may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or admin@mcsregistrars.com by mentioning his/her Folio No./ DP ID and Client ID. However, if he/she is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use existing user ID and password for casting the vote.
 - The remote e-voting period commences on Friday, 23° July, 2021at 09:00 A.M.(IST) and ends on Sunday, 25" July, 2021 at 05:00 P.M.(IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the AGM and the Members participating in the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting. g) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of

entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting. The Board has appointed Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during the meeting in a fair and

Manner of registering/updating e-mail address: Those members holding shares in physical form, whose email addresses are not

registered with the Company, may register their email address and mobile number by communicating/writing to the Company at investor@orientbell.com or to Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020, Tel No. 011-41406149 at admin@mcsregistrars.com and the members who are holding shares in demat form, can update their email address and mobile numbers with their respective Depository For any queries, members may contact the undersigned at +91-11-47119100 or may

write to the undersigned at investor@orientbell.com or send their queries at the Corporate Office address at Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi -110046. For Orient Bell Limited

Yogesh Mendiratta Company Secretary

Place: New Delhi For Ashwani & Associates Date: July 01, 2021



CIN: U51100GJ1992PLC023975

Email: harshad.kawa@lykalabs.com

NOTICE TO MEMBERS

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule

votes during the meeting electronically on the business as specified in the AGM Notice.

proof of address (eg. Aadhaar Card, Passport, Voting Card) supporting the address.

vote by remote e-voting on the business set out in the AGM Notice. Shareholders who would like to express their views / ask questions during the meeting may

For Lyka Exports Limited

ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ 🔘 ਧੰਗਕ ग्रामीण ਕੈਂक Punjab Gramin Bank

Bills for Collection

Rohit Salaria

Chief Manager

Shashi Kumar

Director

Place: New Delhi

Total Busine

Rs. 18423

Rs. 1074 C

Total Depos

Rs. 10802

Total Advan

Total Agri Adv

Total PS Adva

Rs. 7621 C

Rs. 6323 C

Rs. 7198 (

Gross Pro

Rs. 82.16

Jaan Mohammad

Director

Signed by:

OPINION

Net Profit

Rs. 53.46 Cr

Capital & Res

H.O. :- JALANDHAR ROAD, KAPURTHALA, PHONE NO. 01822-230244 Email: punjabgraminbank@gmail.com, www.pgb.org.in

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

Schedule

15

16

17

Amount Rs. in '000'

For the Year

1015,00,2

178,60,84

1193,61,04

586,68,2

406,33.3

118,43,0

1111,44,62

82,16,42

29,13,97

(44.02)

53,46,47

460.83,17

514,37,06

16,43,28

497,38,99

514,37,06

(Sagar Chopra)

54,79

7,42

Number 31.03.2021

For the Year

31.03.2020

960,30,90

164,84,30

1125,15,20

570,61,68

473,37,83

1053,67,11

71,48,06

22,12,07

(1,32,49)

50,68,51

429,06,69

(4,47,81)

475,27,39

14,29,62

460,83,17

475,27,39

14,60

9,67,6

onsored	By Punjab National Ban	k						
		FORM A	FF-96					
000	BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021							
				nt Rs. in '000')				
	PARTICULARS	Schedule Number	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020				
	CAPITAL & LIABILITIES							
its Cr ces cr ances cr	Capital	1 1	25,36,64	25,36,64				
	Reserves and Surplus	2	1048,83,16	995,29,27				
its	Deposits	3	10801,88,25	9443,65,65				
	Borrowings	4	1956,63,99	1749,00,49				
ss r rves r its r es r nces r	Other Liablises & Provisions	- 5	156,34,39	241,11,67				
ces	Total		13989,06,43	12454,43,72				
ess Cr erves its Cr ces ir nces ir		ASSETS						
	Cash & Balance with RBI	6	385,39,67	276,40,80				
	Balance with Banks & Money at call & short notice	7	2285,74,76	1058,98,33				
ir	Investments	- 8	3753,66,59	4313,39,46				
erves cr sits Cr ces cr ances cr	Advances	0	7172,83,68	6507,71,79				
nces	Fixed Assets	10	23,59,56	26,17.30				
	Other Assets	11	367,62,17	271,76,04				
21	Total		13989,06,43	12454,43,72				
	Washington and State William	40	4.00.44	4.40.02				
Cr	Contingent Liabilities	12	4,68,44	4,48,97				
	Principal Accounting Policies	17						
	Notes on Accounts	18						

VK Dua

General Manager Bimal Sharma Director **AUDITORS' REPORT**

General Manager S.K. Aggarwal Director

Mehar Chand

For Ashwani & Associates Chartered Accountants

PARTICULARS

INCOME

Interest Earned

EXPENDITURE

Interest Expended

Operating Expenses

Notes on Accounts

Less Provision For litax

Profit Brought Forward

APPROPRIATIONS

Prev. Year Tax Adjustment

TOTAL

PROFIT

Provisions and Contingencies

Principal Accounting Policies

Profit for the Period Before Tax

(Add)/Less: Prov. for deferred Tax Lib

Net Profit For The Period After Tax

Profit Available For Appropriation

Transfer to Statutory Reserves

Balance C/o to Balance Sheet

Transfer to Other Reserves

Other Income

SK Dubey

Chairman

We have audited the accompanying. Financial Statements of Punjab Gramin Bank (the 'Bank') which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2021, the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements"). This Statement, which is the responsibility of the Bank's management and approved by the Board of Directors, has been prepared in accordance with the Regional Rural Bank Act, 1976, the Banking Regulation Act, 1949 and other Banking Laws in India, accounting principles generally accepted in India along with recognition and measurement principles laid down in the Accounting Standards Issued by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Bank and National Bank of Agriculture and Rural Development ('NABARD'') guidelines from time to time. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2021; and b. true balance of profit in case of Profit &loss account for the year ended on that date.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those standards are

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements Section of our Report. We are independent of the bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. **Emphasis of Matter**

We draw attention to:

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Note no. 5.5 of Part B of Schedule 18 of the Financial Statements, whereby the Bank has for the year created provision for NPA amounting to Rs 118.43Crore. It results in increase of PCR from 55.85% to 77.05% as on 31stMarch 2021. The Bank continues to hold the excess provision amounting to Rs 215.60 Crores in addition to the required provision of Rs 232.34 crores as per IRAC norms issued by Reserve Bank of India. Note No. 12.3of Part B of Schedule 18 of Financial statements, which describes deferment of pension liability of the Bank pursuant to exemption granted by the NABARD to

Regional Rural Banks (RRBs) from application of the provision of Accounting Standards (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no. EC No. 322/DoS-34/2019 Ref. No. NB. DoS. Pol. HO/2533/J-1/2019-20 dated 12th December 2019. iii) Note No. 19.2 of Part B of Schedule 18 of the Financial statements regarding the impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.

The Bank's management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank is

accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and Form 'A' and

'B' of the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Bank of Agriculture and Rura

Development ('NABARD') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material

misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, the management is also responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. An audit involves performing procedures to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from

fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern. . Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

transactions and events in a manner that achieves fair presentation. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of an identified misstatements in the financial statements. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. Incorporated in these financial statements are the returns of 57 branches audited by us and 201 branches

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs above and as required by Regional Rural Banks Act, 1976 and subject also to the limitations of disclosure required

so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors. Our opinion is not modified in respect of this matter

audit.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

1. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit and have found them II. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

III. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of Audit.

therein, and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

ii. Except to the extent of accounting entries proposed by us and other branch statutory auditors vide Memorandum of Changes (MOC) which have not been accounted for in the books of accounts of the Bank as on 31.03.2021, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us; iii. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been

properly dealt with by us in preparing this report; and iv. In our opinion, the Balance Sheet, and the Profit and Loss Account comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the relevant authorities

Place: Ludhiana Date: 29.06.2021

financialexp.epap.in

VALLABH STEELS LIMITED

Regd. Off.: G.T. Road, Village Pawa, Sahnewal, Ludhiana-141 120(Punjab), India.

CIN: L13100TG1958GOI001674 e-Tender Notification

Bid Notice No.: NMDC-Kirandul/SP-III/2021/PKG-X a) Package Name: Balance Works including Residual Engineering and Site

) Consultant: TATA CONSULTING ENGINEERS, KOLKATA Completion Time: Fifteen (15) months (including monsoon period)

on 02.08.2021 The tender document including pre-qualification requirement can be viewed

For accessing the Bid document from NMDC website, the bidder has to register

https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdc/buyer_login.jsp

Mr. Sowmen Bisai, Project Manager TATA CONSULTING ENGINEERS

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and

Encumbrances known, if any: Not Known

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana

Shareholders are hereby informed that pursuant to Section 124(5) of the Companies

Further, please note that in terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read

Dividend etc; that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the The detail of such unclaimed or unpaid dividend is available on Company's website viz www.jaispring.com. The shareholders are hereby requested to check and to take

Demat Account by the aforesaid due date without any further notice.

For Jamna Auto Industries Ltd

Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Lega

Date: 01.07.2021

Chandigarh

Place: New Delhi

You are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated audited by Statutory Branch Auditors. Also Incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 164 branches which have not been subjected to time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares to the IEPR Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Account, you may We did not audit the financial statements / information of 365 branches included in the financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount and the shares, by assets of Rs. 117,92,36,98 thousands as at 31st March 2021 and total revenue of Rs. 534,62,04 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements The financial statements / information of 258 branches out of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available or the website i.e. www. iepf.gov.in. transparent manner.

Chartered Accountants

Flexi Homes, Crossing Republic, Ghaziabad, UP

तिथि: 30.6.2021

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI 4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001

OA. No. 73/2018 **IDBI Bank Limited**

VERSUS

Applicant

Ajeet Kumar Singh & Ors. Defendants To, 1. Sh. Ajeet Kumar Singh R/o. House No. 50, Second Floor, Maharani Bagh, Ring Road, Kirlokri, New Delhi-110014. Also at: Computer Science Corporation India A/44/45, Noida Tower-A, Sector -62, Noida-201301. Also at: Flat No D-233, 23rd Floor, The Nest-

2. Smt. Neelam Singh, R/o. House No. 50, Second Floor, Maharani Bagh, Ring Road, Kirlokri, New Delhi-110014.

3. M/s. Assotech Limited, Regd. Office At: 148-F, Pocket-IV, Mayur Vihar, Phase-I Delhi-110091 Also at: Corporate Office At: A-354, Sector-19, Noida, UP-201301 Also at: Plot No. C-20/1A/1, Phase 2, Industrial Area, Sector-62, Noida, UP-201309

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 56,39,490.36/- (Rupees Fifty Six Lacs Thirty Nine Thousand; Four Hundred Ninety and Thirty Six Paisa Only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on 09.07.2021 at 10:30 A.M. (for further details kindly visit DRT website www.etribunal.gov.in Phone Number, 011-23748473).

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:-

 All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/Software; (II) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "d02rt.gov.in" under the Public Notice

(III) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 30th June of 2021

By order of this Tribunal For Registrar

Respondent may contact under mention Phone number for further enquiry. Mr. Amit K. Dar, Ld. Registrar, DRT-1, New Delhi.

Phone No: 011-23748473, Email: drt1delhi-dfs@nic.in

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : जय स्प्रिंग्स रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, यमुना नगर – 135001, हरियाणा कॉरपोरेट कार्यालय : 2 पार्क लेन, किशनगढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070 दूरभाष : + 91 11 26893331 वेबसाइट : www.jaispring.com सीआईएन : L35911HR1965PLC004485

विषय : 2013 —14 वित्त वर्ष के बिना भुगतान और बिना दावे वाली लाभांश राशि (अंतिम और कंपनी के इक्विटी शेयर का इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आई.ई.पी.एफ) ढीमैट खाते में स्थानांतरण, जिसकी देखमाल आई.ई.पी.एफ अथॉरिटी करती है।

नोटिस

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी एक्ट, 2013 के खंड 124 (5) के अंतर्गत, यदि कोई लाभांश सात साल तक बिना दावा किए शेष रहता है तो इस प्रकार के लाभांश को कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आई.ई.पी.एफ) को स्थानांतरित करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

तद्नुसार, आई.ई.पी.एफ खाते में निम्नलिखित का स्थानातरण किया जाना है :

आई.ई.पी.एफ में स्थानांतरण के लिए विवरण	आई.ई.पी.एफ में स्थानांतरण के लिए देय तिथि	कंपनी को अग्रसारित की जाने वाली दावे की तिथि
वित्त वर्ष 2013—14 का बिना दावे वाला लाभांश (अंतिम)	3 अक्टूबर, 2021	25 सितंबर, 2021 को या उससे पूर्व
इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें	कि कंपनी एक्ट, 2013 के खंड	124 (6) के संदर्भ में, जिसे इनवेस्टर

एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (अकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर और रिफंड) रूल्स, 2016 के नियम 6 के साथ पढ़ा जाए, तो कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी इक्विटी शेयर्स को आई.ई.पी.एफ डिमैट खाते में उक्त देय तिथि को स्थानांतरित कर दे, जिसके संबंध में शेयरधारकों ने निरंतर सात वर्ष तक कोई भुगतान नहीं लिया है या दावा प्रस्तुत नहीं किया है। बिना दावे वाली लाभांश राशि और शेयर एक बार आई.ई.पी.एफ खाते में स्थानांतरित किए जाने के बाद इस संबंध में कंपनी के

कृपया यह भी ध्यान दें कि इसके बाद मिलने वाले सभी कॉरपोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर. लाभांश आदि का लाभ भी आई.ई.पी.एफ खाते में दिया जाएगा।

इस प्रकार के बिना दावे वाली या बिना भुगतान वाली लाभांश राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से इसकी जांच करने का निवेदन किया जाता है और बिना दावे वाली लाभांश राशि के आई.ई.पी.एफ खाते में स्थानांतरण से पहले दावे के बारे में आवश्यक कदम उठाने का निवेदन भी किया जाता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उक्त लाभांश व बारे में दावा निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भेजकर पूरा करें। इसे व्यक्तिगत रूप से हमारे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं:

(i) यदि संयुक्त स्वामित्व हैं, तो उन सभी के हस्ताक्षर से युक्त औपचारिक पत्र (ii) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि

(iii) कैंसल चेक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रतिलिपि

कृपया यह ध्यान दें कि यदि लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या निर्धारित समय में दावा नहीं किया गया है, तो कंपनी के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है कि वह शेयरों को आई.ई.पी.एफ डीमैट खाते में बिना किसी अग्रिम नोटिस के देय तिथि तक जमा करा दे।

कृपया ध्यान दें कि लाभांश और शेयर आई.ई.पी.एफ खाते में जमा कराए जाने के बाद, आप आई.ई.पी.एफ अथॉरिटी से बिना दावे वाली लाभांश राशि और शेयरों का दावा कर सकते हैं। इसके लिए, निर्धारित प्रारूप आई.ई.पी.एफ–5 पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शेयर या लाभांश वापस लेने के दावे के लिए एम.सी.ए द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और नियम वेबसाइट www. iepf.gov.in इस बारे में संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कंपनी

को या हमारे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर इस प्रकार लिखें कि यह 25 सितंबर 2021 को या उससे पहले पहुंच जाए।

कंपनी को जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 पार्क लेन, किशनगढ, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110 070

संपर्क + 91 11 26893331

स्थान : नई दिल्ली

स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डी–153 ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-1 नई दिल्ली - 110020 संपर्क : + 91 11 40450193-97 grievances@skylinerta.com संपर्क : श्री प्रवीण शर्मा

रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर / प्रवीण लखेरा दिनांक: 1 जुलाई 2021 कंपनी सचिव और विधि प्रमुख ARCHIDPLY

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (CIN: L85110UR1995PLC008627)

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. ७, सेक्टर-९, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर, **ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड-263153** Phone: 05944-250270, Fax: 05944-250269

कॉर्पो. कार्यालय: 2/9, 1ला तल, डब्ल्यू.एच.एस., कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 Phone: 011-45642555, Website: www.archidply.com,

Email: cs@archidply.com एजीएम, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक आम सभा विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एतद्वारा यह सुचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय-समय पर यथा-संशोधित के अनुपालन में उपर्युक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ 20 जुलाई, 2021 से 26 जुलाई, 2021 (दोनों तिथियाँ

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय-समय पर यथा-संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में यह कम्पनी उपर्युक्त एजीएम में विचार किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। आगे, रिमोट ई-वोटिंग हेतु यह सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान पहले ही कर लिया हो, वे वीडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) सुविधा द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से एजीएम में मतदान के लिये

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री रजनीश शर्मा, मै. रजनीश शर्मा एंड कं. के प्रॉप्साईटर, कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियक्त किया गया है: सभी सदस्यों को सचित किया जाता है किः

कम्पनी की 26वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

रिमोट ई-वोटिंग 23 जुलाई, 2021 को (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा 25 जुलाई, 2021 को (5.00 iii. कट-ऑफ तिथि 19 जुलाई, 2021 है

iv. यदि कोई व्यक्ति शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 जुलाई, 2021 को शेयर्स धारित करता है, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या अपने फोलियो नं./डीपी आईडी नं. का उल्लेख करते हुए 022-23058542/43 पर कॉल कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकते हैं। किन्तु यदि ऐसे शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेतु [आरटीए/डीपी] के साथ पंजीकृत हैं तो वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्य कपया ध्यान दें कि :

क. 25 जुलाई, 2020 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। ख. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा कम्पनी की एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के पश्चात भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है किन्तु उसे दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी।

केवल ऐसे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ अर्थात 19 जुलाई, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिये अधिकृत होंगे;

i. कम्पनी की 26वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.archidply.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) और बीएसई (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाटि पर भी उपलब्ध होगी।

एजीएम से पर्व या उसके दौरान किसी भी प्रश्नों के लिये आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिये frequently Asked Questions (FAQ's) तथा e-voting user manual देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या श्री नितिन कुण्डेर (022-23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क करें।

iii. ई-वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य कृपया वार्षिक आम बैठक की नोटिस में 'नोट्स' खण्ड का सन्दर्भ लें। आर्किडप्लाई इंडस्टीज लिमिटेड के लिये

अतुल कृष्ण पाण्डेय

स्थान: दिल्ली तिथि: 01.07.2021

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

प्रपत्र सं. 3 [विनियमन-15(1)(ए)]/ 16(3) ऋण वसली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3) 4था तल, तीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

केस नं. ओए/913/2019 एक्जि. नं.: 2465 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन्स यनियन बैंक ऑफ इंडिया

1. मै. आम्रपाली लीजर वैली प्रा.लि., 307, IIIरा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़ड़मा,

साथ हीः कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-56/40, सेक. 62, नोएडा, उ.प्र.

जैसा कि 24.6.2021 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष ओए/931/2019 सूचीबद्ध हुआ था जैसा कि, इस माननीय अधिकरण ने रु. 2431785.00/- के ऋणों की वसूली के लिये आपके विरुद्ध दाखिल अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन (ओए) पर सहर्ष समन/सूचना जारी किया था (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को इस प्रकार से निर्देश दिया जाता है: i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण बतायें कि क्यूं न मांगी गई राहतों को स्वीकार की जाये। ii) मुल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का अतिरिक्त सम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों का विवरण उद्घाटित करें।

iii) आपकी सम्पत्तियों के अटैचमेन्ट के लिये आवेदन की सुनवाई तथा निपटारा लम्बित रहने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उदघाटित प्रतिभत परिममत्तियों या अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को व्यवसाय अथवा निपटारा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। vi) अधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना आप ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभृति हित निर्मित हैं

एवं/अथवा मुल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित या विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों को व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया को छोड़कर बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से अंतरण नहीं करेंगे। v) व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में प्रतिभृत परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा

उगाही की गई बिक्री राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभति हित धारित करने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों में प्रबंधित खाता में उस बिक्री राशि को जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करें तथा आवेदक को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करें तथा 03.08.2021 को 10.30 बजे पूर्वा. में रजिस्टार के समक्ष उपस्थित हों अन्यथा आवेदन की सनवाई तथा

निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी। महामारी की स्थिति जारी रहने के कारण सभी मामले विडियो कान्फ्रैंसिंग द्वारा निपटाये जाएंगे तथा इस उद्देश्य सेः i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें: ii) सनवाई की अगली तिथि अर्थात रजिस्टार/रिकवरी अधिकारी-I/तथा रिकवरी अधिकारी II द्वारा विचार की जाने

वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर सार्वजनिक सुचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी। iii) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748469 पर संबंधित अधिकारी से

इंडियन एक्स्प्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित की जाए।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मृहर लगाकर आज, 30.6.2021 को दी गई।

टिप्पणी: जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

अधिकारी का हस्ताक्षर जो समन जारी करने के

लिये अधिकृत हैं



1, साकेत, मेरठ-250 003 फोन: 0121-2648151, 2648152 ई-मेल: dhanvantrihospital@gmail.com वेबसाईट: www.djrl.org.in

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

丣.	विवरण	31.03.2021	31.12.2020 को समाप्त तिमाही	31.03.2020	100000000000000000000000000000000000000	31.03.2020
सं.		को समाप्त तिमाही		को समाप्त पिछले वर्ष की इस अवधि की तिमाही		को समाप्त वर्ष की अवधि
		अंकेक्षित	पुनरीक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	संचालन से कुल आय	440	233	465	978	1,821
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद मद व कर से पूर्व)	(4)	(23)	(15)	(163)	(31)
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) तथा कर पूर्व (अपवाद मद के पश्चात)	(4)	(23)	(15)	(163)	(31)
4.	अवधि हेतु कर उपरांत शुद्ध लाम/(हानि) (अपवाद स्वरूप और/ या असाधारण वस्तुओं के उपरांत)	17	(23)	(15)	(142)	(26)
5.	अवधि हेतु संपूर्ण सम्यक आय [अवधि हेतु (करउपरांत) लाम/ (हानि) और अन्य सकल आय (करउपरांत) शामिल]	17	(23)	(15)	(142)	(26)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	410	410	410	410	410
7.	पिछले वर्ष की अंकेक्षित बेलैंस शीट के अनुसार रिजर्वस (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व शामिल नहीं)				488	630
8.	आय प्रति शेयर (मूल्य प्रति 10 रु०) (निरंतर व अनियमित संचालन हेतु) (अ) मूलमूत	0.41	0.57	(0.37)	(3.47)	(0.64)
	(ब) द्रव्य	0.41	0.57	(0.37)	(3.47)	(0.64)

टिप्पणियाँ-

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही व वर्ष की अवधि के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमन 2015 के नियम 33 के अधीन स्टाक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही व वर्ष अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उपरोक्त विवरण सार है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही व वर्ष की अवधि के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाईट (www.djrl.org.in) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त परिणाम निदेशकों की अंकेक्षण समिति द्वारा स्वीकृत किए गए थे। कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित और निदेशक मंडल द्वारा 30.06.2021 की बैठक में रिकार्ड पर लिए गए थे। वास्ते एवं ओर से निदेशक मंडल

धनवंतरी जीवन रेखा लि0

(पी.एस. कश्यप) **बिनः** 01664811 अध्यक्ष

साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L74999DL1991PLC045678

पंजीकृत कार्याः 302, 3रा तल, सी-2/4, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार फेज-2, नई दिल्ली-110052, भारत

ई-मेल आईडी: saiindustries1609@gmail.com, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण (राशि लाखों में)

-	विवरण	स्टैंडएलॉन					
	1	100	समाप्त तिमार्ह	ì	समाप	त वर्ष	
		31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.12.2020 (अनंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)	31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)	
1.	परिचालनों से कुल आय	1 8	- 8		8 8		
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	1	-		1.41	1	
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(28.87)	(0.07)	(4.72)	-28.52	-7.51	
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(28.87)	(0.07)	(4.72)	-28.52	-7.51	
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	296.76	296.76	296.76	296.76	296.76	
6.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	(376.32)	(348.11)	(347.80)	-376.32	-347.8	
7.	आय प्रति शेयर (शेयर का सम मूल्य रु. 10/- प्रति का) (अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) क) मूल ख) तरल	(0.32)		-0.18	-0.96	-0.25	
	णी: वत विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दां य परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट तथा कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है।	खिल की गई	तिमाही वित्तीय प	ारिणामों के विस्	तृत प्रारूप का	सार है। तिमाही	

तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड CIN: L51101DL2006PLC148967

पंजी. कार्यालय: 3/14 ए. 1ला तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009

ई-मेलः tarinienterprisespytltd@gmail.com, फोन: 011-32601237, मोबाईल: 9811024165

31.3.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सार (प्रति शेयर डैटा छोड़कर राशि लाखों में

क्रम	विवरण	-	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
x'.\ सं.	199(9)	31.3.2021	31.12.2020	31.3.2020	31.3.2021		
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	151.00	48.20	122.76	315.76	306.45	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-111.10	38.80	-83.55	26.00	37.04	
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-111.10	38.80	-83.55	26.00	37.04	
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-111.10	28.71	-83.55	19.54	27.11	
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध के लिये (कर के बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिये लाभ/ (हानि) से शामिल		28.71	-83.55	19.54	27.11	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	377.30	377.30	377.30	377.30	377.30	
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)			2			
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)						
	1. मूल	-3.29	0.85	-2.48	0.48	0.64	
_	2. तरल	-3.29	0.85	-2.48	0.48	0.64	
L ~ "	•						

क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल समाप्त तिमार्ह तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट www.tarinienterprises.in पर उपलब्ध है। ख) लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुरु व्यापक आय अथवा अन्य किसी संबंधित वित्तीय मदों को फुट नोट के द्वारा उद्घाटित किया जायेगा। ग) खंड रिपोर्टिंग का प्रावधान लागु नहीं है। निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये

बोर्ड के आदेश से

अजय शर्म

तिथि: 30.6.2021 स्थानः दिल्ली

अभय चंद बरदिया प्रबंध निदेशक DIN:00009217

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 5वाँ तल, दानी काॅर्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड कालिना, सांताक्रुज (ई) मुंबई —400098 आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं. सह—उधारकर्ताओं और गारंटरों ने कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (केएफएसएल) से अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभतियों) :

गिरवी रखकर ऋण (सुविधाएँ) प्राप्त की थीं। आपकी चुक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर—निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया और बाद ग केएफएसएल ने असाइनमेंट डीड दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से फीनिक्स आर्क प्रा. लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19—10 योजना के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर हुए) इसके सभी अधिकार, शीर्षक और हित, आपके द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के अनुसार आपके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों के साथ–साथ अंतर्निहित प्रतिभूतियों के ब्याज के साथ उक्त ऋण का लाम उठाने के लिए अचल संपत्तियों के पूनर्भगतान के संबंध में फीनिक्स आर्क ने उक्त असाइनमेंट के अनुसार और बकाया राशि की वसूली के लिए वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है। जिनमें रं सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आपको वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित किया जा रह हैं ।जिनमें से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आपको वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित किया जा रहा है। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभृतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजें गए माँग सूचना और उसके तहत दावा की गई राशि क

ऋणी का नाम और पता, सह-ऋणी, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि हाई किंग इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर इसके मालिक सुश्री किरण शर्मा और श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुखपाल के माध्यम से: 1/7216 ए, गली नंबर 1 शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली - 110032, इसके अलावाः 11449/4 बी 100 फूटा रोड, दुरापुरी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली – 110093, इसके अलावाः 1/72164, गली नंबर 1, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली - 110032, इसके अलावाः 1 / 9805, गली नंबर 5, पश्चिम गोरख पार्क, उप गली आर और एल हाथ, दिल्ली – 110032, **इसके अलावाः** 1/7225, शिवाजी पार्क, शाहदरा, पहली मंजिल, मुख्य बाबरपुर रोड, नई दिल्ली — 110032, **इसके अलावा**: 1 / 1716, गली नंबर 1, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली – 110032।

ऋण खाता संख्याः PR00416027 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1,63,20,000 / – (रुपये एक करोड़ तिरसठ लाख बीस| गिरवीकर्ता का नामः– श्री अजय कुमार पुत्र श्री| न हो ।

निर्माण किया हुआ, 91.97 वर्ग मीटर यानी 110 वर्ग 1. 14.06.2021 गज भूमि के भूखंड पर निर्मित अंतिम मंजिल तक 2. रु. 2,69,86.025 निर्माण के सभी अधिकारों के साथ-साथ संपत्ति (रूपये दो करो उ संख्या 1449 / 4 बी के साथ निर्मित खसरा नंबर उनहत्तर लाख छियासी 842 / 544 और 840 / 774 / 501 में से मुख्य 100 हजार पच्चीस मात्र फुटा रोड, दुर्गापुरी एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिनांक 14.06.2021 तक दिल्ली -110093 की आबादी में ग्राम सिकदरपुर के देय, दिनांक 15.06.2021 क्षेत्र में स्थित है और निम्नानुसार है: पूर्व – अन्य की से लाग ब्याज के साथ संपत्ति, पश्चिम – दूसरों की संपत्ति, उत्तर – सड़क लागत और शुल्क के साथ 100 फीट और दक्षिण — गली 10 फीट चौड़ा। जबतक कि पूर्ण भूगतान

संपत्ति के सभी भाग व अंश, साइट के अनुसार 2. बकाया देय राशि

अचल संपत्ति का विवरण

अतः आप उधारकर्ता / ओं और सह—उधारकर्ताओं से इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित मांग राशि का और अग्रिम ब्याज के साथ भुगतान करने व लेए कहा जाता है, इसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी इसके अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूतियों के उपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगाँ। आपका ध्या मधिनियम की धारों 13 की उप–धारा (8) के प्रावंधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके आधार पर आप पूर्वोक्त प्रावंधान में निर्धारित अवधि के भीतर सुरक्षित संपत्ति को छुडवाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभृतियों को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है। प्राधिकृत अधिकारीः फिनीक्स आर्क प्राईवेट लिमिटे

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 02.07.2021

SAIJA FINANCE PRIVATE LIMITED ALIAZ

Regd Office: F-128, 3rd Floor, Mohammadpur, R.K. Puram, New Delhi - 110066

CIN: U65929DL1997PTC089892

Statement of Audited Financial Results for the year ended as at 31 March 2021 (Amount in Rs. Lacs

For the Six months Six months For the year ended vear ended ended ended **Particulars** 31 March, 2021 31 March, 2020 31 March, 2021 31 March, 2020 Audited Audited Audited Audited Total Income from operations # 5,882.29 9,446.30 2,462.68 4.345.80 Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items) (3,329.40)(17.43)(3,243.56)411.33 Net profit / (loss) for the period before tax (3,243.56)411.33 (after exceptional and /or extraordinary items) (3,329.40)(17.43)Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items) (3,309.88)(16.90)(3,250.53)230.13 Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] (3,351.25)17.87 (3,273.36)268.11 5,546.45 5,546.45 5,546.45 5,546.45 Paid up equity share capital (2.183.18)1,090.16 (2,183.18)1,090.16 Reserves (excluding revaluation reserves) Net worth 3,363.27 6,636.61 3,363.27 6,636.61 17,142.47 24,897.95 17,142.47 24,897.95 Paid up debt capital / outstanding debt Outstanding redeemable preference shares 5.10 3.75 5.10 3.75 Debt equity ratio Earning Per share (of Rs 10 /- each) (for continuing and discontinued operations) (6.04)0.03 (5.86)0.41 a) Basic * 0.03 0.41 b) Diluted * (6.04)(5.86)Capital redemption reserve Debenture redemption reserve Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Debt service coverage ratio (refer to note d below) Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Interest service coverage ratio (refer to note d below) # Excludes other income

Not annualised

Place: New Delhi

Date: 30 June 2021

Notes:

 a) In accordance with Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published financial results for the half year / year ended 31 March 2021. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30 June 2021.

 The above is an extract of the detailed format of the half yearly / annual results filed with the Bombay Stock Exchange ('BSE') under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and is also available on the Company's website www.saija.in.

For the items referred to in the sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been separately made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com. The above have not been disclosed since it is not required as per Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. e) Previous period/year figures have been regrouped / reclassified to conform to the current period classifications, wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of Saija Finance Private Limited Shashi Ranjan Sinha Chairman cum Managing Director

DIN No: 00917884

'केरल सरकार के पास कोविड मौतों पर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं'

तिरुवनंतपुरम, १ जुलाई (भाषा)।

केरल में विपक्षी कांग्रेस के आरोप के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि कोविड से होने वाली मौतों के मामलों में राज्य सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महामारी संबंधी जटिलताओं के कारण होने वाली मौत को इसके आंकड़े में शामिल नहीं किया जा रहा है।

जॉर्ज ने बताया कि संक्रमण के कारण होने वाली मौत की रिपोर्ट के लिए एक नई पारदर्शी व विकेंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली कार्य कर रही है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को छह हफ्तों में दिशा

निर्देश जारी करने का आदेश दिया था, जिसके तहत उन लोगों के परिवारों को अनुदान मुआवजा दिया जा सके जिनकी कोविड के कारण मौत हो चुकी है।

मंत्री ने कहा कि महामारी से होने वाली मौत की रिपोर्टिंग के लिए एक नई पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली है। जब एक कोविड मरीज की मौत होती है तो संबंधित चिकित्सक अथवा अस्पताल अधीक्षक को 24 घंटे के अंदर इसकी सुचना देनी होती है। उन्होंने बताया कि तब इस प्रणाली में इसकी सुचना अद्यतन की जाती है।

मंत्री ने कहा कि केरल एक ऐसा प्रदेश है, जहां 100 फीसद जन्म व मृत्य की रिपोर्ट की जाती है और ऐसा नहीं है कि राज्य इस बात को तय करता है कि किस मौत को कोविड के कारण हुई मौतों की श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी मौत कोविड के कारण हुई है अथवा नहीं, इस बारे में आईसीएमआर व डब्लएचओ के दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित चिकित्सक ही निर्णय कर सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से इसमें कोई त्रुटि नहीं है और अगर कोई ऐसा इक्का-दुक्का मामला है तो उसकी जांच की जाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा था कि कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण हुई सभी मौतों को महामारी से हुई मौत की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

सौ डॉक्टरों को नेतृत्व के आइआइएम

इंदौर, 1 जुलाई (भाषा)।

कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के संघर्ष में चिकित्सक समुदाय के योगदान के प्रति आभार जताते हुए इंदौर के प्रबंध संस्थान (आइआइएम) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 100 डॉक्टरों को नेतृत्व के गुर बिना कोई शुल्क लिए सिखाएगा।

आइआइएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कहा, हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए उन डॉक्टरों के प्रति आभार जताना चाहते हैं जिन्होंने आगे बढ़ कर महामारी की चुनौती का सामना किया और देश को कठिन समय से निकालने में मदद की। उन्होंने कहा कि नेतृत्व विकास के विशेष कार्यक्रम कृतज्ञ के तहत अग्रिम पंक्ति के 100 चयनित डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

राय ने बताया कि लघु अवधि के प्रमाणपत्र कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी डॉक्टरों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग सत्रों में कुल 70 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें नेतत्व. वित्तीय प्रबंधन. संवाद. संचार कौशल और नए जमाने की तकनीक समेत डॉक्टरों की रुचि के समकालीन विषय शामिल होंगे। उन्होंने बताया. आमतौर पर

नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए आइआइएम इंदौर हर प्रतिभागी से 1.5 लाख रुपये का शुल्क लेता है। लेकिन चयनित 100 डॉक्टरों से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राय ने बताया कि इस तरह डॉक्टरों के नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए आइआइएम इंदौर कुल 1.5 करोड़ रुपए का शुल्क नहीं लेगा और यह खर्च संस्थान खुद वहन करेगा। उन्होंने दावा किया कि यह

देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में संस्थागत सामाजिक जिम्मेदारी (आइएसआर) के तहत अब तक का सबसे अधिक राशि वाला अनुमानित अंशदान है।

www.readwhere.com

तिथि: 30.06.2021

स्थानः मेरठ

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI 4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001

Applicant

Defendants

OA. No. 73/2018 **IDBI Bank Limited**

VERSUS

Ajeet Kumar Singh & Ors.

To, 1. Sh. Ajeet Kumar Singh R/o. House No. 50, Second Floor, Maharani Bagh, Ring Road, Kirlokri, New Delhi-110014. Also at: Computer Science Corporation India A/44/45, Noida Tower-A, Sector -62, Noida-201301. Also at: Flat No D-233, 23rd Floor, The Nest-Flexi Homes, Crossing Republic, Ghaziabad, UP

2. Smt. Neelam Singh, R/o. House No. 50, Second Floor, Maharani Bagh, Ring Road, Kirlokri, New Delhi-110014.

3. M/s. Assotech Limited, Regd. Office At: 148-F, Pocket-IV, Mayur Vihar, Phase-I Delhi-110091 Also at: Corporate Office At: A-354, Sector-19, Noida, UP-201301 Also at: Plot No. C-20/1A/1, Phase 2, Industrial Area, Sector-62, Noida, UP-201309

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 56,39,490.36/- (Rupees Fifty Six Lacs Thirty Nine Thousand; Four Hundred Ninety and Thirty Six Paisa Only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on 09.07.2021 at 10:30 A.M. (for further details kindly visit DRT website www.etribunal.gov.in Phone Number. 011-23748473).

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up through Video Conferericing and for that purpose:-

 All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/Software; (II) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "d02rt.gov.in" under the Public Notice

(III) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 30th June of 2021

By order of this Tribunal For Registrar

Respondent may contact under mention Phone number for further enquiry. Mr. Amit K. Dar, Ld. Registrar, DRT-1, New Delhi.

Phone No: 011-23748473, Email: drt1delhi-dfs@nic.in

पंजीकृत कार्यालय : जय स्प्रिंग्स रोड, इंडस्ट्रियल एरिया,

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

यमुना नगर – 135001, हरियाणा कॉरपोरेट कार्यालय : 2 पार्क लेन, किशनगढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070 दरभाष : + 91 11 26893331 वेबसाइट : www.jaispring.com सीआईएन : L35911HR1965PLC004485

विषय : 2013 –14 वित्त वर्ष के बिना भूगतान और बिना दावे वाली लाभांश राशि (अंतिम) और कंपनी के इक्विटी शेयर का इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आई.ई.पी.एफ) डीमैट खाते में स्थानांतरण, जिसकी देखमाल आई.ई.पी.एफ अथॉरिटी करती है। शेयरधारकों को सचित किया जाता है कि कंपनी एक्ट. 2013 के खंड 124 (5) के अंतर्गत, यदि कोई

नोटिस

लाभांश सात साल तक बिना दावा किए शेष रहता है तो इस प्रकार के लाभांश को कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आई.ई.पी.एफ) को स्थानांतरित करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

तदनुसार, आई.ई.पी.एफ खाते में निम्नलिखित का स्थानातरण किया जाना है:

	आई.ई.पी.एफ में स्थानांतरण के लिए देय विथि	कंपनी को अग्रसारित की जाने वाली दावे की तिथि
वित्त वर्ष 2013—14 का बिना दावे वाला लाभांश (अंतिम)	3 अक्टूबर, 2021	25 सितंबर, 2021 को या उससे पूर्व
इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें	कि कंपनी एक्ट, 2013 के खंड	124 (6) के संदर्भ में, जिसे इनवेस्टर

एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (अकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर और रिफंड) रूल्स, 2016 के नियम 6 के साथ पढ़ा जाए, तो कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी इक्विटी शेयर्स को आई.ई.पी.एफ डिमेट खाते में उक्त देय तिथि को स्थानांतरित कर दे, जिसके संबंध में शेयरधारकों ने निरंतर सात वर्ष तक कोई भुगतान नहीं लिया है या दावा प्रस्तुत नहीं किया है। बिना दावे वाली लाभांश राशि और शेयर एक बार आई.ई.पी.एफ खाते में स्थानांतरित किए जाने के बाद इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा प्रस्तृत नहीं होगा।

कृपया यह भी ध्यान दें कि इसके बाद मिलने वाले सभी कॉरपोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर, लाभांश आदि का लाभ भी आई.ई.पी.एफ खाते में दिया जाएगा।

इस प्रकार के बिना दावे वाली या बिना भुगतान वाली लाभांश राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से इसकी जांच करने का निवेदन किया जाता है और बिना दावे वाली लाभांश राशि के आई.ई.पी.एफ खाते में स्थानांतरण से पहले दावे के बारे मे आवश्यक कदम उठाने का निवेदन भी किया जाता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उक्त लाभांश वे बारे में दावा निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भेजकर पूरा करें। इसे व्यक्तिगत रूप से हमारे रजिस्ट्रार

एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं: (i) यदि संयुक्त स्वामित्व हैं, तो उन सभी के हस्ताक्षर से युक्त औपचारिक पत्र

(ii) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि

(iii) कैंसल चेक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रतिलिपि कृपया यह ध्यान दें कि यदि लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या निर्धारित समय में दावा नहीं

किया गया है, तो कंपनी के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है कि वह शेयरों को आई.ई.पी.एफ डीमैट खाते में बिना किसी अग्रिम नोटिस के देय तिथि तक जमा करा दे। कृपया ध्यान दें कि लाभांश और शेयर आई.ई.पी.एफ खाते में जमा कराए जाने के बाद, आप

आई.ई.पी.एफ अथॉरिटी से बिना दावे वाली लाभांश राशि और शेयरों का दावा कर सकते हैं। इसके लिए, निर्धारित प्रारूप आई.ई.पी.एफ-5 पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शेयर या लाभांश वापस लेने के दावे के लिए एम.सी.ए द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और नियम वेबसाइट www. iepf.gov.in

इस बारे में संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कंपनी को या हमारे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर इस प्रकार लिखें कि यह 25 सितंबर 2021 को या उससे पहले पहुंच जाए।

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 पार्क लेन, किशनगढ, वसंत कंज,

कंपनी को

नई दिल्ली — 110 070 संपर्क + 91 11 26893331 ई–मेल : investor.relations@jaispring.com | ई–मेल : parveen@skylinerta.com;

स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डी-153 ए. प्रथम तल. ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-1 नई दिल्ली - 110020 संपर्क : + 91 11 40450193-97 grievances@skylinerta.com संपर्क : श्री प्रवीण शर्मा

रजिस्टार एंड शेयर टांसफर एजेंट को

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर /-स्थान : नई दिल्ली प्रवीण लखेरा दिनांक : 1 जुलाई 2021 कंपनी सचिव और विधि प्रमुख ARCHIDPLY

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (CIN: L85110UR1995PLC008627)

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. ७, सेक्टर-७, इन्टीग्रेटेड इंडिस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड-263153 Phone: 05944-250270, Fax: 05944-250269

कॉर्पो. कार्यालय: 2/9, 1ला तल, डब्ल्यू.एच.एस., कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 Phone: 011-45642555, Website: www.archidply.com, Email: cs@archidply.com

एजीएम, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक आम सभा विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय-समय पर यथा-संशोधित के अनुपालन में उपर्युक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ 20 जुलाई, 2021 से 26 जुलाई, 2021 (दोनों तिथियाँ

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय-समय पर यथा-संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में यह कम्पनी उपर्युक्त एजीएम में विचार किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। आगे, रिमोट ई-वोटिंग हेतु यह सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान पहले ही कर लिया हो, वे वीडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) सविधा द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से एजीएम में मतदान के लिये

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री रजनीश शर्मा, मै. रजनीश शर्मा एंड कं. के प्रॉप्सईटर, कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियक्त किया गया है: सभी सदस्यों को सचित किया जाता है किः

कम्पनी की 26वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से सम्पन्न होंगे। रिमोट ई-वोटिंग 23 जुलाई, 2021 को (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा 25 जुलाई, 2021 को (5.00

बजे अप.) में बंद होगी; iii. कट-ऑफ तिथि 19 जुलाई, 2021 है

iv. यदि कोई व्यक्ति शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सुचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 जुलाई, 2021 को शेयर्स धारित करता है, वं helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या अपने फोलियो नं./डीपी आईडी नं. का उल्लेख करते हुए 022-23058542/43 पर कॉल कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकते हैं। किन्तु यदि ऐसे शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेतु [आरटीए/डीपी] के साथ पंजीकृत हैं तो वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं

क. 25 जुलाई, 2020 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी। ख. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा कम्पनी की एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के पश्चात भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है किन्तु उसे दुबारा मतदान की अनुमित नहीं होगी।

केवल ऐसे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ अर्थात 19 जुलाई, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज हारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों की सची में दर्ज होंगे. वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिये अधिकृत होंगे: vi. कम्पनी की 26वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.archidply.com) तथा

सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) और बीएसई (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाटि पर भी उपलब्ध होगी। ii. एजीएम से पूर्व या उसके दौरान किसी भी प्रश्नों के लिये आप www.evotingindia.com पर सहायत

खंड के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिये frequently Asked Questions (FAQ's) तथा e-voting user manual देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या श्री नितिन कुण्डेर (022-23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क करें। $_{
m viii.}$ ई-वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य कृपया वार्षिक आम बैठक की नोटिस में 'नोट्स'

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये

ऋण वसुली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3)

अतुल कृष्ण पाण्डेय

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

प्रपत्र सं. 3 [विनियमन-15(1)(ए)]/ 16(3)

स्थान: दिल्ली

तिथि: 01.07.2021

4था तल, तीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 केस नं. ओए/913/2019 एक्जि. नं.: 2465 ऋण वस्ली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन्स यनियन बैंक ऑफ इंडिया

सेवा में, 1. मै. आम्रपाली लीजर वैली प्रा.लि., 307, IIIरा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा,

साथ हीः कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-56/40, सेक. 62, नोएडा, उ.प्र.

जैसा कि 24.6.2021 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष ओए/931/2019 सूचीबद्ध हुआ था जैसा कि, इस माननीय अधिकरण ने रु. 2431785.00/- के ऋणों की वसूली के लिये आपके विरुद्ध दाखिल अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन (ओए) पर सहर्ष समन/सचना जारी किया था (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को इस प्रकार से निर्देश दिया जाता है: i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण बतायें कि क्यूं न मांगी गई राहतों को स्वीकार की जाये। ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का अतिरिक्त सम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों का विवरण उद्घाटित करें।

iii) आपकी सम्पत्तियों के अटैचमेन्ट के लिये आवेदन की सुनवाई तथा निपटारा लम्बित रहने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित प्रतिभृत पिसम्पत्तियों या अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को व्यवसाय अथवा निपटारा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। m vi) अधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना आप ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभृति हित निर्मित है

एवं/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित या विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों को व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया को छोड़कर बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से अंतरण नहीं करेंगे। v) व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में प्रतिभृत परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभृति हित धारित करने वाले बैंक अथवा

वित्तीय संस्थानों में प्रबंधित खाता में उस बिक्री राशि को जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करें तथा आवेदक को उसकी एक प्रति प्रस्तृत

करें तथा 03.08.2021 को 10.30 बजे पर्वा. में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।

महामारी की स्थिति जारी रहने के कारण सभी मामले विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा निपटाये जाएंगे तथा इस उद्देश्य सेः i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें: ii) सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् रजिस्ट्रार/रिकवरी अधिकारी-I/तथा रिकवरी अधिकारी II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर

सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी। iii) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748469 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

इंडियन एक्स्प्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित की जाए।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 30.6.2021 को दी गई।

टिप्पणी: जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

अधिकारी का हस्ताक्षर जो समन जारी करने के

लिये अधिकृत हैं

धनवंतरी जीवन रेखा लिमिटेड

1, साकेत, मेरठ-250 003 फोन: 0121-2648151, 2648152 ई-मेल: dhanvantrihospital@gmail.com वेबसाईटः www.djrl.org.in

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

丣.	विवरण	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
₹і.	विषरण	को समाप्त तिमाही	को समाप्त तिमाही	को समाप्त पिछले वर्ष की इस अवधि की तिमाडी	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष की अवधि
		अंकेक्षित	पुनरीक्षित	अंकेक्षित	अंकेबित	अंकेक्षित
1.	संचालन से कुल आय	440	233	465	978	1,821
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद मद व कर से पूर्व)	(4)	(23)	(15)	(163)	(31)
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) तथा कर पूर्व (अपवाद मद के पश्चात)	(4)	(23)	(15)	(163)	(31)
4.	अवधि हेतु कर उपरांत शुद्ध लाम/(हानि) (अपवाद स्वरूप और/ या असाधारण वस्तुओं के उपरांत)	17	(23)	(15)	(142)	(26)
5.	अवधि हेतु संपूर्ण सम्यक आय [अवधि हेतु (करउपरांत) लाम/ (हानि) और अन्य सकल आय (करउपरांत) शामिल]	17	(23)	(15)	(142)	(26)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	410	410	410	410	410
7.	पिछले वर्ष की अंकेक्षित बेलैंस शीट के अनुसार रिजर्वस (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व शामिल नहीं)			1-	488	630
8.	आय प्रति शेयर (मूल्य प्रति 10 रु०) (निरंतर व अनियमित संचालन हेतु) (अ) मूलमूत	0.41	0.57	(0.37)	(3.47)	(0.64)
	(ब) द्रव्य	0.41	0.57	(0.37)	(3.47)	(0.64)

स्थानः मेरठ

तिथिः 30.06.2021

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही व वर्ष की अवधि के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमन 2015 के नियम 33 के अधीन स्टाक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही व वर्ष अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उपरोक्त विवरण सार है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही व वर्ष की अवधि के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाईट (www.djrl.org.in) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त परिणाम निदेशकों की अंकेक्षण समिति द्वारा स्वीकृत किए गए थे। कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित और निदेशक मंडल द्वारा 30.06.2021 की बैठक में रिकार्ड पर लिए गए थे। वास्ते एवं ओर से निदेशक मंडल

घनवंतरी जीवन रेखा लि0

(पी.एस. कश्यप) डिनः 01664811 अध्यक्ष

साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74999DL1991PLC045678 पंजीकृत कार्याः 302, 3रा तल, सी-2/4, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार फेज-2, नई दिल्ली-110052, भारत ई-मेल आईडी: saiindustries1609@gmail.com, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

विवरण		स्टडएलान						
		समाप्त तिमार्ह	1	समाप	त वर्ष			
90	31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.12.2020 (अनंकेक्षित)		31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)			
परिचालनों से कुल आय								
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)		- 3		1.41				
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(28.87)	(0.07)	(4.72)	-28.52	-7.5			
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(28.87)	(0.07)	(4.72)	-28.52	-7.5			
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	296.76	296.76	296.76	296.76	296.7			
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	(376.32)	(348.11)	(347.80)	-376.32	-347.			
आय प्रति शेयर (शेयर का सम मूल्य रु. 10/- प्रति का) (अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)	- 10	- 0						
क) मूल								
ख) तरल	(0.32)	P	-0.18	-0.96	-0.2			

उपरोक्त विवरण सेवी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट तथा कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेश से

साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए तिथि: 30.6.2021 अजय शर्मा स्थानः दिल्ली

तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L51101DL2006PLC148967

पंजी. कार्यालय: 3/14 ए. 1ला तल. विजय नगर. डबल स्टोरी. दिल्ली-110009 ई-मेलः tarinienterprisespvtltd@gmail.com,

फोन: 011-32601237, मोबाईल: 9811024165 31.3.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सार

(प्रति शेयर डैटा छोडकर राशि लाखों मे समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष विवरण 31.12.2020 31.3.2020 31.3.2021 31.3.2020 31.3.2021 1. परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) 48.20 122.76 315.76 306.45 151.00 -111.10 38.80 -83.55 26.00 असाधारण मदों से पर्व) -111.10 38.80 -83.55 26.00

2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा 37.04 3. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा 37.04 असाधारण मदों के बाद) 4. कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा 27.11 -111.10 28.71 -83.5519.54 असाधारण मदों के बाद) 5. अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि के लिये (कर के बाद) तथा -111.10 28.71 19.54 27.11 -83.55 अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिये लाभ/ (हानि) से शामिल 6. इक्विटी शेयर पंजी 377.30 377.30 377.30 377.30 377.30 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) 8. आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) 0.85 0.64 -3.29-2.480.48 **2.** तरल 0.85 -2.480.64 -3.290.48

क्रम

क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल समाप्त तिमार्ह तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाई www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट www.tarinienterprises.in पर उपलब्ध है। ख) लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुर व्यापक आय अथवा अन्य किसी संबंधित वित्तीय मदों को फुट नोट के द्वारा उद्घाटित किया जायेगा। ग) खंड रिपोर्टिंग का प्रावधान लागू नहीं है। निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये

तिथि: 30.6.2021 स्थानः दिल्ली

अभय चंद बरिदय प्रबंध निदेशव DIN:00009217

सरफेसी अधिनियम्, 2002 फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत कार्यालयः 5्वाँ तल, दानी कॉुर्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताक्रुज (ई) मुंबई —400098 मांग सूचना आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों ने कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (केएफएसएल) से अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभृतियों) गिरवी रखकर ऋण (सुविधाएँ) प्राप्त की थीं। आपकी चुक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया और बाद केएफएसएल ने असाइनमेंट डीड दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से फीनिक्स आर्क प्रा. लिमिटेड (फीनिक्स टस्ट वित्त वर्ष 19—10 योजना के टस्टी के रूप में कार्य करते

हुए) इसके सभी अधिकार, शीर्षक और हित, आपके द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के अनुसार आपके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों के साथ—साथ अंतर्निहित प्रतिभृतियों के ब्याज के साथ उक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए अचल संपत्तियों के पुनर्भुगतान के संबंध में फीनिक्स आर्क ने उक्त असाइनमेंट के अनुसार और बकाया राशि की वसूली के लिए वित्तीय संपत्ति के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया हैं। जिनमें र सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आपको वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित किया जा रह हैं |जिनमें से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आपको वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित किया जा रहा है। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभृतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए माँग सूचना और उसके तहत दावा की गई राशि क अचल संपत्ति का विवरण 1. डिमांड नोटिस की तारीख ऋणी का नाम और पता, सह-ऋणी, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि

हाई किंग इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर इसके मालिक सुश्री किरण शर्मा और संपत्ति के सभी भाग व अंश, साइट के अनुसार 2. बकाया देय राशि श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुखपाल के माध्यम से: 1/7216 ए, गली नंबर 1, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली - 110032, इसके अलावाः 11449/4 बी, 100 फूटा रोड, दुरापुरी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली – 110093, इसके अलावाः 1 / 72164, गली नंबर 1, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली — 110032, **इसके** अलावाः 1 / 9805, गली नंबर 5, पश्चिम गोरख पार्क, उप गली आर और एल हाथ, दिल्ली — 110032, **इसके अलावाः** 1/7225, शिवाजी पार्क, शाहदरा, पहली मंजिल, मुख्य बाबरपुर रोड, नई दिल्ली – 110032, इसके अलावाः 1 / 1716, गली नंबर 1, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली – 110032।

ऋण खाता संख्याः PR00416027 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1,63,20,000 / – (रुपये एक करोड़ तिरसट लाख बीस| गिरवीकर्ता का नामः– श्री अजय क्मार पुत्र श्री न हो ।

गज भूमि के भूखंड पर निर्मित अंतिम मंजिल तक 2. रु. 2,69,86,025 निर्माण के सभी अधिकारों के साथ—साथ संपत्ति (रूपये दो करो र संख्या 1449/4 बी के साथ निर्मित खसरा नंबर उनहत्तर लाख छियार्स 842 / 544 और 840 / 774 / 501 में से मुख्य 100 हजार पच्चीस मात्र फुटा रोड, दुर्गापुरी एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिनांक 14.06.2021 तव दिल्ली —110093 की आबादी में ग्राम सिकदरपुर के देय, दिनांक 15.06.202 क्षेत्र में स्थित है और निम्नानुसार है: पूर्व – अन्य की से लागू ब्याज के साथ संपत्ति, पश्चिम – दूसरों की संपत्ति, उत्तर – सड़क लागत और शुल्क के साथ 100 फीट और दक्षिण — गली 10 फीट चौड़ा। जबतक कि पूर्ण भ्गतान अतः आप उधारकर्ता / ओं और सह—उधारकर्ताओं से इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित मांग राशि का और अग्रिम ब्याज के साथ भूगतान करने व

निर्माण किया हुआ, 91.97 वर्ग मीटर यानी 110 वर्ग 1. 14.06.2021

लिए कहा जाता है, इसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी इसके अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूतियों के उपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगाँ। आपका ध्यान मधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके आधार पर आप पूर्वोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर सुरक्षित गंपत्ति को छुड़वाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभृतियों को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है। प्राधिकृत अधिकारीः फिनीक्स आर्क प्राईवेट लिमिटेड

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 02.07.2021

SAIJA FINANCE PRIVATE LIMITED ALIAZ

Regd Office: F-128, 3rd Floor, Mohammadpur, R.K. Puram, New Delhi - 110066 CIN: U65929DL1997PTC089892

Statement of Audited Financial Results for the year ended as at 31 March 2021

(Amount in Rs. Lacs) For the For the Six months Six months ended ended year ended year ended **Particulars** 31 March, 2020 31 March, 2021 31 March, 2021 31 March, 2020 Audited Audited Audited Audited 9,446.30 Total Income from operations # 2,462.68 4,345.80 5.882.29 Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional (3,243.56)and /or extraordinary items) (3.329.40)(17.43)411.33 Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items) (17.43)(3,243.56)411.33 (3,329.40)Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items) (16.90)(3,250.53)230.13 (3,309.88)Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) 17.87 (3,273.36)and other comprehensive income (after tax)] (3,351.25)268.11 5,546.45 5,546.45 5,546.45 5,546.45 Paid up equity share capital 1,090.16 (2.183.18)1,090.16 (2,183.18)Reserves (excluding revaluation reserves) 3,363.27 3,363.27 6,636.61 Net worth 6,636.61 24,897.95 17,142.47 17,142.47 Paid up debt capital / outstanding debt 24,897.95 Outstanding redeemable preference shares 5.10 3.75 5.10 3.75 Debt equity ratio Earning Per share (of Rs 10 /- each) (for continuing and discontinued operations) (6.04)0.03 0.41 b) Diluted * (6.04)0.03 (5.86)0.41 Capital redemption reserve Debenture redemption reserve Debt service coverage ratio (refer to note d below) Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Interest service coverage ratio (refer to note d below) Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable # Excludes other income

Not annualised

Place: New Delhi

Date: 30 June 2021

Notes:

 a) In accordance with Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published financial results for the half year / year ended 31 March 2021. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30 June 2021.

The above is an extract of the detailed format of the half yearly / annual results filed with the Bombay Stock Exchange ('BSE') under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and is also available on the Company's website www.saija.in.

c) For the items referred to in the sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been separately made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com. The above have not been disclosed since it is not required as per Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

e) Previous period/year figures have been regrouped / reclassified to conform to the current period classifications, wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of Saija Finance Private Limited Shashi Ranjan Sinha Chairman cum Managing Director DIN No: 00917884

'केरल सरकार के पास कोविड मौतों पर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं'

तिरुवनंतपुरम, १ जुलाई (भाषा)।

(राशि लाखों में)

केरल में विपक्षी कांग्रेस के आरोप के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि कोविड से होने वाली मौतों के मामलों में राज्य सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महामारी संबंधी जटिलताओं के कारण होने वाली मौत को इसके आंकड़े में शामिल नहीं किया जा रहा है।

जॉर्ज ने बताया कि संक्रमण के कारण होने वाली मौत की रिपोर्ट के लिए एक नई पारदर्शी व विकेंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली कार्य कर रही है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को छह हफ्तों में दिशा

निर्देश जारी करने का आदेश दिया था, जिसके तहत उन लोगों के परिवारों को अनुदान मुआवजा दिया जा सके जिनकी कोविड के कारण मौत हो चुकी है।

मंत्री ने कहा कि महामारी से होने वाली मौत की रिपोर्टिंग के लिए एक नई पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली है। जब एक कोविड मरीज की मौत होती है तो संबंधित चिकित्सक अथवा अस्पताल अधीक्षक को 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना देनी होती है। उन्होंने बताया कि तब इस प्रणाली में इसकी सूचना अद्यतन की जाती है।

मंत्री ने कहा कि केरल एक ऐसा प्रदेश है, जहां 100 फीसद जन्म व मृत्यु की रिपोर्ट की जाती है और ऐसा नहीं है कि राज्य इस बात को तय करता है कि किस मौत को कोविड के कारण हुई मौतों की श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी मौत कोविड के कारण हुई है अथवा नहीं, इस बारे में आईसीएमआर व डब्लूएचओ के दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित चिकित्सक ही निर्णय कर सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से इसमें कोई त्रृटि नहीं है और अगर कोई ऐसा इक्का-दुक्का मामला है तो उसकी जांच की जाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा था कि कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण हुई सभी मौतों को महामारी से हुई मौत की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

सौ डॉक्टरों आइआइएम

इंदौर, 1 जुलाई (भाषा)।

कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के संघर्ष में चिकित्सक समुदाय के योगदान के प्रति आभार जताते हुए इंदौर के प्रबंध संस्थान (आइआइएम) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 100 डॉक्टरों को नेतृत्व के गुर बिना कोई शुल्क लिए सिखाएगा।

आइआइएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कहा, हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए उन डॉक्टरों के प्रति आभार जताना चाहते हैं जिन्होंने आगे बढ़ कर महामारी की चुनौती का सामना किया और देश को कठिन समय से निकालने में मदद की। उन्होंने कहा कि नेतृत्व विकास के विशेष कार्यक्रम कृतज्ञ के तहत अग्रिम पंक्ति के 100 चयनित डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

राय ने बताया कि लघ् अवधि के प्रमाणपत्र कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी डॉक्टरों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग सत्रों में कुल 70 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें नेतत्व. वित्तीय प्रबंधन. संवाद. संचार कौशल और नए जमाने की तकनीक समेत डॉक्टरों की रुचि के समकालीन विषय शामिल होंगे।

उन्होंने बताया, आमतौर पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए आइआइएम इंदौर हर प्रतिभागी से 1.5 लाख रुपये का शुल्क लेता है। लेकिन चयनित 100 डॉक्टरों से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राय ने बताया कि इस तरह डॉक्टरों के नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए आइआइएम इंदौर कुल 1.5 करोड़ रुपए का शुल्क नहीं लेगा और यह खर्च संस्थान खुद वहन करेगा। उन्होंने दावा किया कि यह

देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में संस्थागत सामाजिक जिम्मेदारी (आइएसआर) के तहत अब तक का सबसे अधिक राशि वाला अनुमानित अंशदान है।

www.readwhere.com

Chandigarh